



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2124]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2009/अग्रहायण 24, 1931

No. 2124]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2009/AGRAHAYANA 24, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2009

**का.आ. 3211(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर दिनाजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 397.733 कि.मी. से 452.700 कि.मी. (दलकोला बाईपास ब्यातित) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), बाईपास सहित, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन) जिला उत्तर दिनाजपुर, कलेक्टरेट बिल्डिंग, जिला उत्तर दिनाजपुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 397.733 कि.मी. से 452.700 कि.मी. (दलकोला बाईपास ब्यापित) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर दिनाजपुर	1. रायगंज	1. पश्चिम महादेबपुर (जे.एल.नं. 204)	एल.आर. 7	निजी	गैर कृषि	0.280
				एल.आर. 8	निजी	गैर कृषि	1.360
				एल.आर. 10	निजी	गैर कृषि	0.220
				एल.आर. 11	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 172	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 173	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 174	निजी	कृषि	0.280
				एल.आर. 175	निजी	गैर कृषि	0.160
				एल.आर. 179	निजी	कृषि	0.680
				एल.आर. 184	निजी	गैर कृषि	0.005
				एल.आर. 723	निजी	गैर कृषि	0.460
				एल.आर. 724	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 725	निजी	गैर कृषि	0.160
			(2) रुपाहार (जे.एल.नं. 202)	एल.आर. 637	निजी	कृषि	0.270
				एल.आर. 638	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 639	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 644	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 645	निजी	कृषि	0.340
				एल.आर. 646	निजी	कृषि	0.710
				एल.आर. 647	निजी	कृषि	0.680
				एल.आर. 648	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 652	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 653	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 654	निजी	कृषि	1.250
				एल.आर. 655	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 657	निजी	कृषि	1.200
				एल.आर. 658	निजी	कृषि	0.640
				एल.आर. 659	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 660	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 662	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 823	निजी	कृषि	0.155
			(3) कसबा (जे.एल.नं. 145)	एल.आर. 2163	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 2164	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 2165	निजी	कृषि	1.620
				एल.आर. 2166	प.ब.स.	कृषि	0.010
				एल.आर. 2177	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 2197	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 2198	प.ब.स.	गैर कृषि	0.640
				एल.आर. 2201	प.ब.स.	कृषि	0.010
				एल.आर. 2167	निजी	कृषि	0.010

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 2171	निजी	कृषि	0.350
				एल.आर. 2173	निजी	कृषि	0.640
				एल.आर. 2174	निजी	कृषि	0.660
			(4) मराईकुरा (जे.एल.नं. 144)	एल.आर. 167	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 168	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 169	निजी	कृषि	0.745
				एल.आर. 170	निजी	कृषि	0.960
				एल.आर. 318	निजी	कृषि	0.820
				एल.आर. 319	निजी	कृषि	1.420
				एल.आर. 320	निजी	कृषि	0.175
				एल.आर. 322	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 323	निजी	कृषि	0.430
				एल.आर. 324	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 325	प.बं.स.	कृषि	0.110
				एल.आर. 304	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 310	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 315	निजी	कृषि	0.450
				एल.आर. 317	निजी	कृषि	1.120
			(5) अमीनगर (जे.एल.नं. 09)	एल.आर. 58	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 59	निजी	कृषि	0.450
				एल.आर. 60	निजी	कृषि	0.400
				एल.आर. 61	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 62	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 65	निजी	गैर कृषि	0.005
				एल.आर. 66	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 67	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 347	निजी	कृषि	0.610
				एल.आर. 348	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 349	निजी	कृषि	1.260
				एल.आर. 350	निजी	कृषि	0.075
				एल.आर. 351	प.बं.स.	कृषि	0.020
				एल.आर. 5	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 6	निजी	कृषि	0.210
				एल.आर. 7	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 8	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 9	निजी	कृषि	0.340
				एल.आर. 10	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 11	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 12	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 14	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 15	निजी	कृषि	0.530
				एल.आर. 16	निजी	कृषि	0.480
				एल.आर. 17	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 22	निजी	गैर कृषि	0.070
				एल.आर. 27	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 28	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 29	निजी	कृषि	0.300

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 30	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 31	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 33	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 34	निजी	कृषि	0.540
				एल.आर. 35	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 43	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 44	निजी	कृषि	0.910
				एल.आर. 45	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 46	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 47	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 52	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 53	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 54	निजी	कृषि	0.680
				एल.आर. 56	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 57	निजी	कृषि	0.390
				एल.आर. 69	निजी	कृषि	0.210
				एल.आर. 70	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 182	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 530	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 531	निजी	कृषि	0.540
				एल.आर. 532	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 533	निजी	कृषि	1.050
			(6) तेनाहरी (जे.एल.नं. 143)	एल.आर. 1177	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 1191	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 1192	निजी	कृषि	0.065
				एल.आर. 1193	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 1194	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 1195	निजी	कृषि	0.290
				एल.आर. 1196	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 1197	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 1200	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 1201	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 1202	निजी	कृषि	0.210
				एल.आर. 1203	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 1204	निजी	कृषि	0.290
				एल.आर. 1205	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 1207	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 1208	निजी	कृषि	0.340
				एल.आर. 1209	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 1210	निजी	कृषि	0.600
				एल.आर. 1215	निजी	कृषि	0.085
				एल.आर. 1216	निजी	कृषि	0.115
				एल.आर. 1332	निजी	कृषि	0.810
				एल.आर. 1333	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 1337	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 1338	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 1339	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 1340	निजी	कृषि	0.020

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 1341	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 1342	निजी	कृषि	0.145
				एल.आर. 1343	निजी	कृषि	0.390
				एल.आर. 1344	निजी	कृषि	0.440
				एल.आर. 1345	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 1346	निजी	कृषि	0.210
				एल.आर. 1347	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 1348	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 1351	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 1358	निजी	गैर कृषि	0.420
				एल.आर. 1359	निजी	कृषि	0.145
				एल.आर. 1360	निजी	गैर कृषि	0.120
				एल.आर. 1361	निजी	कृषि	0.135
				एल.आर. 1362	निजी	कृषि	0.265
				एल.आर. 1363	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 1364	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 1365	निजी	कृषि	0.125
				एल.आर. 1366	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 1367	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 1368	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 1369	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 1370	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 1371	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 1372	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 1373	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 1397	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 1444	निजी	गैर कृषि	0.130
				एल.आर. 1485	निजी	कृषि	0.280
				एल.आर. 1486	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 1677	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 284	निजी	गैर कृषि	1.630
				एल.आर. 285	निजी	कृषि	0.480
				एल.आर. 286	निजी	गैर कृषि	0.620
				एल.आर. 287	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 297	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 298	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 299	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 300	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 316	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 317	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 318	निजी	कृषि	0.680
				एल.आर. 319	निजी	कृषि	0.230
				एल.आर. 320	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 321	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 323	निजी	कृषि	0.215
				एल.आर. 324	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 325	निजी	कृषि	0.530
				एल.आर. 326	निजी	गैर कृषि	0.450
				एल.आर. 343	निजी	गैर कृषि	0.150

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 363	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 1133	निजी	कृषि	0.340
				एल.आर. 1134	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 1135	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 1136	निजी	कृषि	0.470
				एल.आर. 1137	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 1138	निजी	कृषि	0.600
				एल.आर. 1467	निजी	कृषि	0.045
				एल.आर. 1736	निजी	गैर कृषि	0.030
				एल.आर. 33	निजी	कृषि	0.460
				एल.आर. 129	निजी	कृषि	0.310
				एल.आर. 130	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 131	निजी	गैर कृषि	1.350
				एल.आर. 133	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 135	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 163	निजी	कृषि	0.590
				एल.आर. 164	निजी	कृषि	0.520
				एल.आर. 165	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 166	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 167	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 168	निजी	गैर कृषि	0.600
				एल.आर. 169	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 170	निजी	कृषि	0.520
				एल.आर. 174	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 175	निजी	कृषि	2.130
				एल.आर. 348	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 1509	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 1510	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 1543	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 1733	निजी	गैर कृषि	0.100
				एल.आर. 1734	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 38	निजी	कृषि	1.170
				एल.आर. 39	निजी	कृषि	1.200
				एल.आर. 40	निजी	कृषि	0.135
				एल.आर. 44	निजी	कृषि	0.400
				एल.आर. 56	निजी	कृषि	0.045
				एल.आर. 57	निजी	कृषि	1.350
				एल.आर. 58	निजी	कृषि	0.660
				एल.आर. 59	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 60	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 61	निजी	कृषि	1.320
				एल.आर. 161	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 349	निजी	गैर कृषि	0.200
				एल.आर. 1541	निजी	कृषि	0.920
			(7) अभोर (जे.एल.नं. 121)	एल.आर. 183	प.बं.स.	गैर कृषि	0.740
				एल.आर. 186	निजी	कृषि	0.085
				एल.आर. 189	निजी	कृषि	0.310
				एल.आर. 190	निजी	कृषि	0.680

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 192	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 193	निजी	कृषि	0.535
				एल.आर. 194	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 197	निजी	कृषि	0.370
				एल.आर. 199	निजी	कृषि	1.250
				एल.आर. 203	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 204	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 205	प.ब.स.	कृषि	0.700
				एल.आर. 206	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 433	निजी	कृषि	0.650
				एल.आर. 516	निजी	गैर कृषि	1.060
			(8) भिति (जे.एल.नं. 120)	एल.आर. 51	निजी	गैर कृषि	0.290
				एल.आर. 153	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 154	निजी	कृषि	0.550
				एल.आर. 158	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 159	निजी	कृषि	0.720
				एल.आर. 160	निजी	कृषि	1.920
				एल.आर. 161	निजी	कृषि	1.340
				एल.आर. 162	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 178	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 179	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 180	निजी	कृषि	0.670
				एल.आर. 181	निजी	कृषि	0.460
				एल.आर. 182	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 183	निजी	गैर कृषि	0.200
				एल.आर. 211	निजी	कृषि	0.490
				एल.आर. 212	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 213	निजी	कृषि	0.310
				एल.आर. 214	निजी	कृषि	0.650
				एल.आर. 215	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 216	निजी	कृषि	0.400
				एल.आर. 217	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 219	निजी	कृषि	1.540
				एल.आर. 235	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 287	प.ब.स.	कृषि	0.070
				एल.आर. 289	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 291	निजी	कृषि	0.360
				एल.आर. 292	निजी	कृषि	0.090
			(9) मरिया (जे.एल.नं. 118)	एल.आर. 10	निजी	कृषि	1.010
				एल.आर. 11	निजी	कृषि	0.760
				एल.आर. 13	निजी	कृषि	0.480
				एल.आर. 17	निजी	गैर कृषि	0.090
				एल.आर. 43	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 44	निजी	कृषि	0.525
				एल.आर. 45	निजी	कृषि	0.850
				एल.आर. 46	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 47	निजी	कृषि	0.340

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 48	निजी	कृषि	1.850
				एल.आर. 83	निजी	कृषि	0.670
				एल.आर. 84	निजी	कृषि	0.450
				एल.आर. 85	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 86	निजी	कृषि	0.960
				एल.आर. 87	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 88	प.ब.स.	कृषि	0.350
				एल.आर. 89	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 150	निजी	कृषि	0.115
				एल.आर. 151	निजी	कृषि	0.095
			(10) बासुदेबपुर (जे.एल.नं. 115)	एल.आर. 42	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 43	निजी	कृषि	0.550
				एल.आर. 50	निजी	कृषि	0.065
				एल.आर. 54	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 56	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 57	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 58	निजी	गैर कृषि	0.400
				एल.आर. 59	निजी	गैर कृषि	0.400
				एल.आर. 140	निजी	गैर कृषि	0.130
				एल.आर. 175	निजी	कृषि	0.400
				एल.आर. 176	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 177	निजी	कृषि	0.115
				एल.आर. 178	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 182	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 183	निजी	कृषि	0.350
				एल.आर. 184	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 185	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 186	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 187	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 188	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 189	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 190	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 222	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 225	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 226	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 227	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 228	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 229	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 230	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 231	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 232	निजी	कृषि	0.340
				एल.आर. 233	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 236	निजी	कृषि	0.295
				एल.आर. 237	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 238	निजी	कृषि	0.600
				एल.आर. 239	निजी	कृषि	0.390
				एल.आर. 240	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 256	प.ब.स.	कृषि	0.015



1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 257	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 258	प.ब.स.	कृषि	0.600
				एल.आर. 259	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 260	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 261	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 264	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 33	निजी	कृषि	0.400
				एल.आर. 35	निजी	कृषि	1.240
				एल.आर. 36	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 37	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 38	निजी	कृषि	0.580
				एल.आर. 41	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 44	निजी	कृषि	0.550
				एल.आर. 45	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 106	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 107	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 108	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 109	निजी	कृषि	1.000
				एल.आर. 111	निजी	कृषि	0.600
				एल.आर. 597	निजी	कृषि	0.200
			(11) महाराजपुर (ज.एल.नं. 114)	आर.एस. 284	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 285	निजी	कृषि	0.640
				आर.एस. 287	निजी	कृषि	0.750
				आर.एस. 485	निजी	कृषि	0.175
				आर.एस. 486	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 487	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 488	निजी	कृषि	0.210
				आर.एस. 489	प.ब.स.	कृषि	1.040
				आर.एस. 490	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 529	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 530	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 534	निजी	गैर कृषि	0.110
				आर.एस. 221	निजी	कृषि	1.280
				आर.एस. 227	निजी	कृषि	0.850
				आर.एस. 228	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 229	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 230	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 231	निजी	कृषि	0.190
				आर.एस. 232	निजी	कृषि	0.430
				आर.एस. 257	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 258	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 259	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 269	निजी	कृषि	0.650
				आर.एस. 272	निजी	कृषि	0.980
				आर.एस. 273	निजी	कृषि	1.000
				आर.एस. 274	निजी	कृषि	0.390
				आर.एस. 275	निजी	कृषि	0.460
				आर.एस. 276	निजी	कृषि	0.550

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 277	निजी	कृषि	0.280
				आर.एस. 278	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 286	निजी	कृषि	1.140
				आर.एस. 290	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 523	निजी	कृषि	0.450
				आर.एस. 543	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 544	निजी	कृषि	0.150
			(12) चापदार (जे.एल.नं. 108)	आर.एस. 1359	निजी	कृषि	0.045
				आर.एस. 1360	निजी	कृषि	2.060
				आर.एस. 1405	निजी	गैर कृषि	0.110
				आर.एस. 1420	निजी	कृषि	0.680
				आर.एस. 1425	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 1426	निजी	कृषि	0.560
				आर.एस. 1427	निजी	कृषि	0.950
				आर.एस. 1428	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 1429	निजी	कृषि	0.540
				आर.एस. 1529	निजी	कृषि	1.360
				आर.एस. 1530	निजी	कृषि	0.340
				आर.एस. 1548	निजी	कृषि	1.040
				आर.एस. 1551	निजी	कृषि	0.690
				आर.एस. 1555	निजी	गैर कृषि	0.070
				आर.एस. 1654	निजी	कृषि	0.430
				आर.एस. 1753	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 1754	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 1755	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 1757	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 1758	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 1215	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 1226	निजी	कृषि	1.000
				आर.एस. 1240	निजी	कृषि	0.210
				आर.एस. 1241	निजी	कृषि	1.270
				आर.एस. 1242	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 1244	निजी	कृषि	0.300
				आर.एस. 1245	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 1246	निजी	कृषि	0.490
				आर.एस. 1247	निजी	कृषि	0.400
				आर.एस. 1248	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 1249	निजी	कृषि	0.670
				आर.एस. 1250	निजी	कृषि	1.450
				आर.एस. 1251	निजी	कृषि	0.600
				आर.एस. 1252	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 1327	प.ब.स.	गैर कृषि	0.190
				आर.एस. 1328	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 1329	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 1330	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 1331	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 1332	निजी	कृषि	1.660
				आर.एस. 1364	निजी	कृषि	0.050

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 1218	निजी	गैर कृषि	0.130
				आर.एस. 1219	निजी	गैर कृषि	0.190
				आर.एस. 1220	निजी	गैर कृषि	0.740
				आर.एस. 1221	निजी	गैर कृषि	0.130
				आर.एस. 1222	निजी	कृषि	1.580
				आर.एस. 1223	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 1225	निजी	कृषि	0.590
				आर.एस. 1231	निजी	गैर कृषि	0.110
			(13) मधुपुर (जे.एल.नं. 109)	एल.आर. 233	निजी	कृषि	0.800
				एल.आर. 234	निजी	कृषि	0.960
				एल.आर. 239	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 241	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 242	निजी	कृषि	0.290
				एल.आर. 243	निजी	कृषि	0.660
				एल.आर. 250	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 422	निजी	कृषि	1.340
				एल.आर. 423	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 424	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 425	निजी	कृषि	0.510
				एल.आर. 480	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 555	निजी	कृषि	1.360
				एल.आर. 35	प.बं.स.	गैर कृषि	0.120
				एल.आर. 147	निजी	कृषि	0.470
				एल.आर. 148	निजी	कृषि	0.590
				एल.आर. 149	निजी	कृषि	0.600
				एल.आर. 150	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 151	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 156	निजी	कृषि	0.540
				एल.आर. 244	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 245	निजी	कृषि	0.920
				एल.आर. 246	निजी	कृषि	0.520
				एल.आर. 247	निजी	कृषि	0.600
				एल.आर. 248	निजी	कृषि	0.600
				एल.आर. 260	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 263	निजी	कृषि	1.140
				एल.आर. 264	निजी	कृषि	0.410
				एल.आर. 492	निजी	कृषि	0.570
				एल.आर. 493	निजी	कृषि	0.350
				एल.आर. 539	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 7	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 12	निजी	कृषि	0.780
				एल.आर. 13	निजी	कृषि	1.970
				एल.आर. 15	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 16	निजी	कृषि	1.500
				एल.आर. 121	निजी	कृषि	1.100
				एल.आर. 122	निजी	कृषि	0.520
				एल.आर. 124	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 137	निजी	कृषि	0.720

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 139	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 140	निजी	कृषि	1.240
				एल.आर. 142	निजी	कृषि	0.055
				एल.आर. 143	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 144	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 491	निजी	गैर कृषि	0.125
				एल.आर. 2	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 5	निजी	गैर कृषि	0.780
				एल.आर. 6	निजी	गैर कृषि	0.930
				एल.आर. 473	प.ब.स.	गैर कृषि	0.070
			(14) ऐकर (जे.एल.नं. 110)	एल.आर. 315	निजी	गैर कृषि	0.010
				एल.आर. 317	निजी	गैर कृषि	0.003
				एल.आर. 319	प.ब.स.	गैर कृषि	0.100
				एल.आर. 320	निजी	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 321	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 322	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 324	निजी	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 326	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 327	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 328	निजी	गैर कृषि	0.140
				एल.आर. 331	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 332	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 333	निजी	कृषि	0.280
				एल.आर. 334	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 335	निजी	कृषि	0.270
				एल.आर. 336	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 337	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 338	निजी	कृषि	0.400
				एल.आर. 339	निजी	गैर कृषि	0.420
				एल.आर. 340	निजी	कृषि	0.530
				एल.आर. 341	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 343	निजी	कृषि	0.850
				एल.आर. 344	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 345	निजी	कृषि	0.920
				एल.आर. 346	निजी	कृषि	0.500
				एल.आर. 347	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 348	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 356	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 357	निजी	गैर कृषि	0.160
				एल.आर. 358	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 360	निजी	कृषि	0.003
				एल.आर. 645	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 646	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 647	निजी	कृषि	0.440
			(15) देगाँओ (जे.एल.नं. 85)	आर.एस. 1003	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 1004	निजी	कृषि	0.390
				आर.एस. 1010	निजी	कृषि	0.350

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 1011	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 1012	निजी	कृषि	0.530
				आर.एस. 1013	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 1031	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 1032	निजी	कृषि	0.250
				आर.एस. 1033	निजी	कृषि	0.300
				आर.एस. 1034	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 1035	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 1036	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 1040	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 1042	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 1043	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 1044	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 1045	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 1049	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 1050	निजी	गैर कृषि	0.090
				आर.एस. 1051	निजी	गैर कृषि	0.130
				आर.एस. 1052	निजी	गैर कृषि	0.020
				आर.एस. 1053	निजी	गैर कृषि	0.100
				आर.एस. 1054	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 1056	निजी	गैर कृषि	0.050
				आर.एस. 1058	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 1059	निजी	गैर कृषि	0.330
				आर.एस. 1074	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 1197	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 1198	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 1199	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 1200	निजी	गैर कृषि	0.070
			(16) बरई (जे.एल.नं. 88)	आर.एस. 139	निजी	गैर कृषि	0.010
				आर.एस. 248	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 249	निजी	कृषि	0.520
				आर.एस. 250	प.बं.स.	गैर कृषि	0.280
				आर.एस. 251	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 252	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 253	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 254	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 255	निजी	कृषि	1.800
				आर.एस. 273	निजी	कृषि	0.500
				आर.एस. 274	निजी	कृषि	0.270
				आर.एस. 275	निजी	गैर कृषि	0.220
				आर.एस. 276	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 277	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 278	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 282	निजी	गैर कृषि	0.050
				आर.एस. 283	निजी	कृषि	0.085
				आर.एस. 284	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 287	निजी	कृषि	0.065
				आर.एस. 288	निजी	गैर कृषि	0.070

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 289	निजी	कृषि	0.630
				आर.एस. 290	निजी	कृषि	0.190
				आर.एस. 291	निजी	कृषि	0.290
				आर.एस. 292	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 293	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 294	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 297	निजी	गैर कृषि	0.010
				आर.एस. 298	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 299	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 301	निजी	गैर कृषि	0.030
				आर.एस. 317	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 318	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 336	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 337	प.बं.स.	कृषि	0.180
				आर.एस. 339	निजी	गैर कृषि	0.080
				आर.एस. 350	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 357	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 358	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 360	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 368	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 369	निजी	कृषि	0.230
				आर.एस. 372	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 1	निजी	कृषि	1.500
				आर.एस. 4	निजी	कृषि	0.960
				आर.एस. 6	निजी	कृषि	0.780
				आर.एस. 7	निजी	गैर कृषि	0.040
				आर.एस. 8	प.बं.स.	कृषि	0.025
				आर.एस. 9	निजी	कृषि	0.260
				आर.एस. 10	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 14	निजी	कृषि	0.680
				आर.एस. 15	निजी	कृषि	1.350
				आर.एस. 16	प.बं.स.	गैर कृषि	2.500
				आर.एस. 18	निजी	कृषि	0.500
				आर.एस. 19	निजी	कृषि	0.260
				आर.एस. 21	निजी	गैर कृषि	0.010
				आर.एस. 25	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 26	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 27	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 29	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 30	निजी	कृषि	0.250
				आर.एस. 246	निजी	कृषि	0.035
				आर.एस. 247	निजी	गैर कृषि	0.050
				आर.एस. 257	निजी	गैर कृषि	0.280
			(17) सितग्राम (जे.एल.नं. 71)	आर.एस. 560	निजी	कृषि	0.570
				आर.एस. 561	निजी	कृषि	0.430
				आर.एस. 562	निजी	कृषि	0.350
				आर.एस. 563	निजी	कृषि	0.280
				आर.एस. 704	निजी	कृषि	0.055

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 705	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 706	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 707	निजी	कृषि	0.270
				आर.एस. 708	निजी	कृषि	0.400
				आर.एस. 725	निजी	कृषि	0.600
				आर.एस. 726	निजी	गैर कृषि	0.170
				आर.एस. 727	निजी	गैर कृषि	0.003
				आर.एस. 732	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 733	निजी	कृषि	1.160
				आर.एस. 740	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 762	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 765	निजी	कृषि	0.003
				आर.एस. 2064	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 501	निजी	कृषि	0.250
				आर.एस. 504	निजी	कृषि	0.540
				आर.एस. 506	निजी	कृषि	0.980
				आर.एस. 519	निजी	गैर कृषि	0.030
				आर.एस. 551	निजी	गैर कृषि	0.550
				आर.एस. 552	निजी	गैर कृषि	0.020
				आर.एस. 553	प.ब.स.	गैर कृषि	0.090
				आर.एस. 554	निजी	कृषि	0.500
				आर.एस. 558	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 559	निजी	कृषि	1.110
				आर.एस. 599	प.ब.स.	गैर कृषि	0.030
				आर.एस. 741	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 742	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 743	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 753	प.ब.स.	कृषि	0.150
				आर.एस. 768	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 769	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 770	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 771	निजी	कृषि	0.440
				आर.एस. 772	निजी	कृषि	0.660
				आर.एस. 773	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 777	निजी	गैर कृषि	0.020
			(18) द्वीपनगर (जे.एल.नं. 87)	आर.एस. 1333	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 1334	निजी	गैर कृषि	0.025
				आर.एस. 1335	निजी	कृषि	0.370
				आर.एस. 1337	निजी	कृषि	0.110
				आर.एस. 1341	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 1343	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 1344	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 1355	निजी	कृषि	0.110
				आर.एस. 1357	निजी	गैर कृषि	0.020
				आर.एस. 1084	निजी	गैर कृषि	0.010
				आर.एस. 1309	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 1312	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 1316	निजी	कृषि	0.240

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 1317	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 1321	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 1009	निजी	कृषि	0.120
			(19) कृष्णमुडि (जे.एल.नं. 69)	एल.आर. 652	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 667	निजी	कृषि	0.610
				एल.आर. 668	निजी	कृषि	0.410
				एल.आर. 669	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 670	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 671	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 674	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 675	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 679	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 680	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 681	निजी	कृषि	0.065
				एल.आर. 682	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 687	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 688	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 689	निजी	गैर कृषि	0.040
				एल.आर. 691	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 692	निजी	कृषि	0.035
				एल.आर. 693	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 694	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 697	निजी	गैर कृषि	0.190
				एल.आर. 698	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 699	निजी	गैर कृषि	0.060
				एल.आर. 700	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 701	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 702	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 703	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 704	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 705	निजी	कृषि	0.265
				एल.आर. 100	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 102	निजी	कृषि	1.250
				एल.आर. 105	निजी	कृषि	0.800
				एल.आर. 106	निजी	कृषि	0.570
				एल.आर. 107	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 121	निजी	कृषि	0.350
				एल.आर. 122	निजी	कृषि	0.340
				एल.आर. 123	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 124	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 143	निजी	कृषि	0.450
				एल.आर. 144	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 146	निजी	कृषि	0.560
				एल.आर. 147	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 179	निजी	कृषि	0.480
				एल.आर. 180	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 181	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 184	निजी	कृषि	0.540



1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 185	निजी	कृषि	0.003
				एल.आर. 182	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 183	निजी	कृषि	0.400
				एल.आर. 218	निजी	गैर कृषि	0.015
				एल.आर. 219	निजी	गैर कृषि	0.150
				एल.आर. 220	निजी	गैर कृषि	0.030
				एल.आर. 243	निजी	गैर कृषि	0.110
				एल.आर. 244	निजी	गैर कृषि	0.025
				एल.आर. 246	निजी	कृषि	0.570
				एल.आर. 247	निजी	कृषि	0.540
			(20) पाईकपाड़ा (जे.एल.नं. 68)	एल.आर. 47	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 48	निजी	कृषि	0.270
				एल.आर. 49	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 50	निजी	कृषि	0.520
				एल.आर. 76	निजी	कृषि	0.340
				एल.आर. 77	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 78	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 38	प.बं.स.	कृषि	0.270
				एल.आर. 39	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 40	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 42	निजी	कृषि	0.615
				एल.आर. 43	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 44	प.बं.स.	गैर कृषि	0.100
			(21) शीतलपुर (जे.एल.नं. 62)	एल.आर. 195	निजी	गैर कृषि	0.025
				एल.आर. 259	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 260	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 261	निजी	कृषि	0.230
				एल.आर. 262	निजी	कृषि	0.500
				एल.आर. 263	निजी	कृषि	1.470
				एल.आर. 264	निजी	कृषि	1.200
				एल.आर. 265	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 268	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 269	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 319	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 320	निजी	कृषि	0.550
				एल.आर. 321	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 322	निजी	कृषि	1.200
				एल.आर. 323	निजी	कृषि	0.340
				एल.आर. 324	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 219	प.बं.स.	कृषि	0.450
				एल.आर. 220	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 222	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 223	निजी	गैर कृषि	0.480
				एल.आर. 245	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 246	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 247	निजी	कृषि	0.640

1	2	3	4	5	6	7	8
			(22) मकदमपुर (जे.एल.नं. 61)	आर.एस. 716	प.बं.स.	कृषि	0.170
				आर.एस. 737	निजी	कृषि	0.320
				आर.एस. 738	निजी	कृषि	0.720
				आर.एस. 741	निजी	कृषि	0.900
				आर.एस. 742	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 762	प.बं.स.	गैर कृषि	0.220
				आर.एस. 763	प.बं.स./ निजी	कृषि	1.100
				आर.एस. 764	निजी	कृषि	0.780
				आर.एस. 765	निजी	कृषि	2.250
				आर.एस. 791	प.बं.स.	कृषि	0.060
		2. करणदिघी	(1) बिलासपुर (जे.एल.नं. 215)	एल.आर. 196	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 199	निजी	कृषि	0.460
				एल.आर. 200	निजी	गैर कृषि	0.060
				एल.आर. 201	निजी	कृषि	0.085
				एल.आर. 204	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 205	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 206	निजी	कृषि	0.230
				एल.आर. 207	निजी	कृषि	1.000
				एल.आर. 243	निजी	कृषि	0.230
				एल.आर. 244	निजी	कृषि	1.060
				एल.आर. 245	निजी	कृषि	0.310
				एल.आर. 247	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 248	निजी	कृषि	0.720
				एल.आर. 249	निजी	कृषि	0.270
				एल.आर. 250	निजी	कृषि	1.440
				एल.आर. 251	निजी	कृषि	1.110
				एल.आर. 252	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 44	प.बं.स.	गैर कृषि	0.030
				एल.आर. 52	निजी	गैर कृषि	0.120
				एल.आर. 61	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 62	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 66	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 67	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 68	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 69	निजी	गैर कृषि	0.010
				एल.आर. 70	निजी	गैर कृषि	0.030
				एल.आर. 71	निजी	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 72	निजी	गैर कृषि	0.085
				एल.आर. 74	निजी	गैर कृषि	0.050
				एल.आर. 75	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 77	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 78	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 85	निजी	कृषि	0.045
				एल.आर. 86	निजी	गैर कृषि	0.045
				एल.आर. 87	प.बं.स.	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 88	निजी	कृषि	0.010

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 209	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 210	निजी	कृषि	0.360
				एल.आर. 211	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 212	निजी	कृषि	1.180
				एल.आर. 213	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 214	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 215	निजी	गैर कृषि	0.110
				एल.आर. 216	निजी	गैर कृषि	0.150
				एल.आर. 217	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 218	निजी	गैर कृषि	0.040
				एल.आर. 219	निजी	गैर कृषि	0.160
				एल.आर. 221	निजी	गैर कृषि	0.005
				एल.आर. 222	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 307	प.बं.स.	गैर कृषि	0.060
				एल.आर. 309	निजी	गैर कृषि	0.175
				एल.आर. 310	निजी	कृषि	0.450
				एल.आर. 328	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 329	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 331	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 332	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 333	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 334	निजी	गैर कृषि	0.030
				एल.आर. 335	निजी	गैर कृषि	0.045
				एल.आर. 336	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 337	निजी	गैर कृषि	0.015
				एल.आर. 338	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 339	प.बं.स.	गैर कृषि	0.030
			(2) बलिया (जे.एल.नं. 214)	एल.आर. 13	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 14	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 15	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 16	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 17	निजी	गैर कृषि	0.250
				एल.आर. 18	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 19	निजी	कृषि	0.540
				एल.आर. 79	निजी	कृषि	0.280
				एल.आर. 119	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 120	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 121	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 125	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 126	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 127	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 129	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 130	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 131	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 219	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 220	निजी	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 221	निजी	गैर कृषि	0.050
				एल.आर. 222	निजी	गैर कृषि	0.010

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 223	निजी	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 224	निजी	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 225	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 227	निजी	कृषि	0.105
				एल.आर. 228	निजी	कृषि	0.280
				एल.आर. 231	निजी	गैर कृषि	0.040
				एल.आर. 232	निजी	गैर कृषि	0.005
				एल.आर. 233	निजी	कृषि	0.075
				एल.आर. 234	निजी	गैर कृषि	0.075
				एल.आर. 236	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 237	निजी	गैर कृषि	0.070
				एल.आर. 238	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 239	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 240	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 241	निजी	कृषि	0.105
				एल.आर. 242	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 243	निजी	गैर कृषि	0.075
				एल.आर. 246	निजी	गैर कृषि	0.050
				एल.आर. 250	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 251	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 256	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 257	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 260	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 261	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 273	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 274	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 276	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 277	निजी	गैर कृषि	0.230
				एल.आर. 278	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 279	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 280	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 281	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 515	प.बं.स.	गैर कृषि	0.090
			(3) इब्राहिमपुर (जे.एल.नं. 212)	आर.एस. 47	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 48	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 49	निजी	कृषि	0.075
				आर.एस. 50	निजी	कृषि	0.045
				आर.एस. 51	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 52	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 56	निजी	कृषि	0.350
				आर.एस. 58	निजी	कृषि	0.095
				आर.एस. 59	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 88	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 89	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 90	निजी	कृषि	0.495
				आर.एस. 91	निजी	कृषि	0.145
				आर.एस. 92	निजी	कृषि	0.065
				आर.एस. 93	प.बं.स.	कृषि	0.150

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 104	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 105	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 106	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 107	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 108	निजी	कृषि	0.460
				आर.एस. 115	निजी	कृषि	0.640
				आर.एस. 119	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 120	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 128	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 129	निजी	कृषि	0.130
			(4) नाकोल (जे.एल.नं. 211)	एल.आर. 167	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 168	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 169	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 177	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 180	प.बं.स.	गैर कृषि	0.060
				एल.आर. 181	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 184	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 188	निजी	कृषि	0.590
				एल.आर. 193	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 194	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 196	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 197	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 198	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 199	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 200	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 201	प.बं.स.	गैर कृषि	0.040
				एल.आर. 205	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 208	निजी	कृषि	0.230
				एल.आर. 209	निजी	गैर कृषि	0.080
				एल.आर. 210	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 211	निजी	कृषि	0.210
				एल.आर. 212	निजी	कृषि	0.740
				एल.आर. 214	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 215	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 224	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 225	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 227	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 228	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 229	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 230	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 231	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 1510	निजी	कृषि	0.310
				एल.आर. 1511	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 1512	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 1513	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 1740	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 1741	निजी	कृषि	0.530
				एल.आर. 1742	निजी	कृषि	0.030

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 1743	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 1748	निजी	कृषि	0.480
				एल.आर. 1749	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 1750	निजी	कृषि	1.020
				एल.आर. 1751	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 1755	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 1763	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 1764	प.ब.स.	कृषि	0.015
				एल.आर. 1769	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 1791	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 1792	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 1836	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 1837	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 1838	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 1843	प.ब.स.	गैर कृषि	0.060
			(5) आलतापुर (जे.एल.नं. 203)	आर.एस. 344	निजी	कृषि	0.085
				आर.एस. 346	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 347	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 357	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 361	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 362	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 367	निजी	गैर कृषि	0.090
				आर.एस. 368	निजी	गैर कृषि	0.080
				आर.एस. 372	निजी	गैर कृषि	0.040
				आर.एस. 457	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 458	निजी	गैर कृषि	0.020
				आर.एस. 459	प.ब.स.	कृषि	0.015
				आर.एस. 463	प.ब.स.	गैर कृषि	0.040
				आर.एस. 465	निजी	कृषि	0.240
				आर.एस. 472	निजी	गैर कृषि	0.235
				आर.एस. 473	निजी	गैर कृषि	0.355
				आर.एस. 474	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 477	निजी	कृषि	0.530
				आर.एस. 478	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 482	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 1010	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 1011	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 1012	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 1013	निजी	कृषि	0.550
				आर.एस. 1014	निजी	कृषि	0.003
				आर.एस. 1016	निजी	गैर कृषि	0.160
				आर.एस. 1017	प.ब.स.	गैर कृषि	0.310
				आर.एस. 1018	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 1020	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 1021	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 1028	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 1029	निजी	कृषि	0.035
				आर.एस. 1030	निजी	कृषि	0.055

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 1031	निजी	कृषि	0.270
				आर.एस. 1032	निजी	कृषि	0.075
				आर.एस. 1033	निजी	कृषि	0.135
				आर.एस. 1034	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 1035	निजी	कृषि	0.330
				आर.एस. 1036	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 1037	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 1043	प.ब.स.	गैर कृषि	0.130
				आर.एस. 1116	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 601	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 602	निजी	गैर कृषि	0.128
				आर.एस. 603	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 604	निजी	कृषि	0.095
				आर.एस. 605	निजी	कृषि	0.075
				आर.एस. 606	निजी	गैर कृषि	0.095
				आर.एस. 607	निजी	कृषि	0.165
				आर.एस. 608	निजी	कृषि	0.085
				आर.एस. 622	निजी	गैर कृषि	0.195
				आर.एस. 624	निजी	कृषि	0.500
				आर.एस. 626	निजी	कृषि	0.280
				आर.एस. 627	निजी	कृषि	0.505
				आर.एस. 628	निजी	कृषि	0.300
				आर.एस. 630	प.ब.स.	गैर कृषि	0.055
				आर.एस. 5	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 6	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 7	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 10	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 11	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 26	निजी	गैर कृषि	0.010
				आर.एस. 28	निजी	गैर कृषि	0.010
				आर.एस. 29	निजी	कृषि	0.085
				आर.एस. 30	निजी	गैर कृषि	0.030
				आर.एस. 32	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 34	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 35	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 36	निजी	कृषि	0.075
				आर.एस. 86	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 87	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 88	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 95	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 96	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 97	प.ब.स.	कृषि	0.035
				आर.एस. 455	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 456	निजी	गैर कृषि	0.070
				आर.एस. 484	निजी	कृषि	0.520
				आर.एस. 485	निजी	गैर कृषि	0.025
				आर.एस. 490	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 491	निजी	कृषि	1.275
				आर.एस. 502	निजी	कृषि	0.490

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 503	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 504	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 507	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 508	निजी	कृषि	0.240
				आर.एस. 509	निजी	गैर कृषि	0.735
				आर.एस. 510	निजी	कृषि	0.035
				आर.एस. 511	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 512	निजी	गैर कृषि	0.010
				आर.एस. 540	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 541	निजी	गैर कृषि	0.005
				आर.एस. 542	निजी	कृषि	0.235
				आर.एस. 543	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 544	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 545	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 546	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 547	निजी	गैर कृषि	0.095
				आर.एस. 548	निजी	कृषि	0.075
				आर.एस. 549	निजी	गैर कृषि	0.150
				आर.एस. 550	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 551	निजी	गैर कृषि	0.090
				आर.एस. 552	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 553	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 554	प.बं.स.	गैर कृषि	0.035
				आर.एस. 578	निजी	कृषि	0.275
				आर.एस. 579	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 581	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 582	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 583	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 584	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 596	निजी	कृषि	0.190
				आर.एस. 597	निजी	गैर कृषि	0.100
				आर.एस. 598	निजी	गैर कृषि	0.040
				आर.एस. 599	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 600	निजी	गैर कृषि	0.220
				आर.एस. 1117	निजी	गैर कृषि	0.040
			(6) बीहनगर (जे.एल.नं. 200)	एल.आर. 882	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 883	निजी	कृषि	0.045
				एल.आर. 884	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 895	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 896	निजी	कृषि	0.035
				एल.आर. 897	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 955	प.बं.स.	गैर कृषि	0.010
				एल.आर. 958	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 959	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 964	निजी	कृषि	0.045
				एल.आर. 965	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 969	निजी	कृषि	0.125
				एल.आर. 970	निजी	कृषि	0.050



1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 992	निजी	कृषि	0.075
				एल.आर. 996	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 511	निजी	गैर कृषि	0.120
				एल.आर. 513	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 514	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 517	निजी	गैर कृषि	0.050
				एल.आर. 518	निजी	कृषि	0.045
				एल.आर. 564	निजी	गैर कृषि	0.210
				एल.आर. 565	प.बं.स.	कृषि	0.015
				एल.आर. 566	प.बं.स.	गैर कृषि	0.005
				एल.आर. 869	निजी	गैर कृषि	0.005
				एल.आर. 870	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 999	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 1000	निजी	गैर कृषि	0.025
				एल.आर. 1001	निजी	गैर कृषि	0.015
				एल.आर. 347	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 348	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 349	निजी	कृषि	0.085
				एल.आर. 478	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 479	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 480	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 490	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 492	प.बं.स.	कृषि	0.060
				एल.आर. 506	निजी	कृषि	0.515
			(7) मछल (जे.एल.नं. 202)	एल.आर. 136	निजी	कृषि	0.760
				एल.आर. 137	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 139	निजी	गैर कृषि	0.160
				एल.आर. 140	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 141	निजी	कृषि	0.560
				एल.आर. 149	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 150	निजी	कृषि	0.680
				एल.आर. 151	निजी	कृषि	0.440
				एल.आर. 3	निजी	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 4	निजी	कृषि	0.275
				एल.आर. 5	प.बं.स.	कृषि	0.040
				एल.आर. 9	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 10	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 11	निजी	कृषि	0.600
				एल.आर. 12	निजी	गैर कृषि	0.040
				एल.आर. 13	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 14	निजी	कृषि	0.095
				एल.आर. 15	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 60	प.बं.स.	गैर कृषि	0.110
				एल.आर. 114	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 115	निजी	कृषि	0.780
				एल.आर. 116	निजी	कृषि	0.075
				एल.आर. 117	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 118	निजी	कृषि	0.440

1	2	3	4	5	6	7	8
			(8) कुहातौर (जे.एल.नं. 201)	एल.आर. 223	निजी	कृषि	0.660
				एल.आर. 224	प.ब.स.	गैर कृषि	0.030
				एल.आर. 227	निजी	कृषि	0.560
				एल.आर. 228	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 229	निजी	कृषि	0.210
				एल.आर. 230	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 235	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 239	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 240	निजी	कृषि	0.570
				एल.आर. 241	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 242	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 243	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 244	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 251	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 252	निजी	कृषि	0.465
				एल.आर. 253	निजी	कृषि	0.210
				एल.आर. 254	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 256	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 258	प.ब.स.	कृषि	0.020
				एल.आर. 259	निजी	कृषि	0.460
				एल.आर. 260	निजी	कृषि	0.190
				एल.आर. 265	निजी	कृषि	1.750
				एल.आर. 266	निजी	कृषि	0.455
				एल.आर. 268	प.ब.स.	गैर कृषि	0.350
				एल.आर. 269	निजी	कृषि	0.120
			(9) सादीपुर (जे.एल.नं. 188)	एल.आर. 989	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 990	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 991	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 994	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 995	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 996	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 1017	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 1022	निजी	कृषि	0.190
			(10) जुझारपुर (जे.एल.नं. 183)	आर.एस. 2002	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 2005	निजी	कृषि	0.055
				आर.एस. 2006	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 2018	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 2019	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 2025	निजी	कृषि	0.075
				आर.एस. 2026	निजी	कृषि	0.095
				आर.एस. 2027	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 2029	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 2030	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 2031	निजी	कृषि	0.195
				आर.एस. 2033	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 2038	निजी	कृषि	0.215

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 2039	प.बं.स.	गैर कृषि	0.195
				आर.एस. 2296	निजी	कृषि	0.440
				आर.एस. 2297	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 2303	निजी	गैर कृषि	0.020
				आर.एस. 2304	निजी	गैर कृषि	0.005
				आर.एस. 2305	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 2306	निजी	गैर कृषि	0.015
				आर.एस. 2307	निजी	गैर कृषि	0.005
				आर.एस. 2308	निजी	कृषि	0.380
				आर.एस. 2312	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 2314	प.बं.स.	कृषि	0.015
				आर.एस. 2315	निजी	गैर कृषि	0.040
				आर.एस. 2316	निजी	कृषि	0.420
				आर.एस. 2317	निजी	कृषि	0.210
				आर.एस. 2350	निजी	गैर कृषि	0.035
				आर.एस. 2351	निजी	कृषि	0.255
				आर.एस. 2361	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 2362	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 2363	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 2364	निजी	कृषि	0.135
				आर.एस. 2365	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 2376	प.बं.स.	कृषि	0.080
				आर.एस. 2377	निजी	कृषि	0.230
				आर.एस. 2378	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 2386	निजी	कृषि	0.515
				आर.एस. 2387	निजी	कृषि	0.490
				आर.एस. 2388	निजी	कृषि	0.350
				आर.एस. 2389	प.बं.स.	गैर कृषि	0.030
				आर.एस. 1802	निजी	कृषि	0.960
				आर.एस. 1803	निजी	कृषि	0.045
				आर.एस. 1804	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 1805	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 1806	निजी	कृषि	0.730
				आर.एस. 1854	निजी	कृषि	0.230
				आर.एस. 1855	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 1856	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 1857	निजी	कृषि	0.650
				आर.एस. 1858	निजी	कृषि	0.440
				आर.एस. 1859	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 1860	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 1861	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 1862	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 1863	प.बं.स.	कृषि	0.010
				आर.एस. 1864	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 1865	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 1866	निजी	गैर कृषि	0.020
				आर.एस. 1950	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 1951	प.बं.स.	गैर कृषि	0.195
				आर.एस. 1952	निजी	गैर कृषि	0.080

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 1953	निजी	कृषि	0.760
				आर.एस. 2044	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 2045	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 2046	प.व.स.	गैर कृषि	0.125
				आर.एस. 2047	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 2048	प.व.स.	कृषि	0.035
				आर.एस. 2049	निजी	कृषि	0.035
				आर.एस. 2052	प.व.स.	कृषि	0.335
				आर.एस. 2054	निजी	कृषि	0.420
				आर.एस. 2055	निजी	गैर कृषि	0.050
				आर.एस. 68	निजी	कृषि	1.550
				आर.एस. 1602	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 1604	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 1605	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 1607	निजी	कृषि	0.710
				आर.एस. 1608	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 1609	निजी	कृषि	0.490
				आर.एस. 1610	प.व.स.	कृषि	0.210
				आर.एस. 1613	निजी	कृषि	0.400
				आर.एस. 1614	निजी	कृषि	0.035
				आर.एस. 1615	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 1616	निजी	कृषि	0.850
				आर.एस. 1617	निजी	कृषि	0.045
				आर.एस. 1630	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 1632	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 1633	निजी	कृषि	0.560
				आर.एस. 1756	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 1757	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 1758	निजी	कृषि	0.380
				आर.एस. 1759	निजी	कृषि	0.035
				आर.एस. 1766	निजी	कृषि	0.225
				आर.एस. 1768	निजी	कृषि	2.020
				आर.एस. 1770	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 1771	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 1780	निजी	कृषि	0.580
				आर.एस. 1781	निजी	कृषि	0.850
				आर.एस. 1782	निजी	कृषि	0.085
				आर.एस. 1783	निजी	कृषि	0.055
				आर.एस. 1799	निजी	कृषि	0.110
				आर.एस. 7	निजी	कृषि	0.450
				आर.एस. 8	निजी	कृषि	1.380
				आर.एस. 9	प.व.स.	गैर कृषि	0.050
				आर.एस. 11	निजी	कृषि	1.160
				आर.एस. 13	निजी	कृषि	0.600
				आर.एस. 14	निजी	कृषि	0.670
				आर.एस. 16	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 17	निजी	कृषि	0.730
				आर.एस. 18	निजी	कृषि	0.280
				आर.एस. 19	निजी	कृषि	0.080

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 51	प.बं.स.	गैर कृषि	0.160
				आर.एस. 54	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 56	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 57	निजी	कृषि	0.530
				आर.एस. 58	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 59	निजी	कृषि	0.450
				आर.एस. 60	निजी	कृषि	0.750
				आर.एस. 68	निजी	कृषि	0.260
			(11) बहानगाँव (जे.एल.नं. 187)	आर.एस. 227	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 228	निजी	कृषि	0.680
				आर.एस. 229	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 230	निजी	कृषि	0.630
				आर.एस. 231	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 359	प.बं.स.	गैर कृषि	0.240
			(12) बैजुयार (जे.एल.नं. 182)	आर.एस. 199	प.बं.स.	गैर कृषि	0.410
				आर.एस. 200	निजी	कृषि	0.630
				आर.एस. 222	निजी	कृषि	1.700
				आर.एस. 231	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 232	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 235	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 237	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 238	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 239	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 240	निजी	कृषि	0.250
				आर.एस. 241	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 242	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 243	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 244	निजी	कृषि	0.230
				आर.एस. 245	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 246	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 247	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 248	निजी	कृषि	0.240
				आर.एस. 249	निजी	कृषि	0.330
				आर.एस. 250	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 251	निजी	कृषि	0.200
			(13) बालचियार (जे.एल.नं. 184)	आर.एस. 748	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 749	प.बं.स.	कृषि	0.630
			(14) भकसाला (जे.एल.नं. 180)	आर.एस. 358	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 363	निजी	कृषि	0.055
				आर.एस. 365	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 366	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 387	प.बं.स.	गैर कृषि	0.015
				आर.एस. 400	निजी	कृषि	0.110
				आर.एस. 401	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 404	निजी	कृषि	0.030

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 406	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 443	निजी	कृषि	0.680
				आर.एस. 317	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 337	निजी	कृषि	0.320
			(15) साधनपुर (जे.एल.नं. 181)	आर.एस. 228	निजी	कृषि	0.450
				आर.एस. 229	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 232	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 234	निजी	कृषि	0.270
				आर.एस. 235	प.ब.स.	गैर कृषि	0.085
				आर.एस. 236	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 240	निजी	कृषि	0.890
				आर.एस. 242	निजी	कृषि	1.380
				आर.एस. 245	निजी	कृषि	0.290
				आर.एस. 244	निजी	कृषि	0.410
			(16) दुनीभिता (जे.एल.नं. 165)	आर.एस. 85	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 87	निजी	गैर कृषि	0.060
				आर.एस. 93	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 94	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 193	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 197	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 199	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 200	निजी	कृषि	0.280
				आर.एस. 201	निजी	कृषि	0.380
				आर.एस. 202	निजी	कृषि	0.290
				आर.एस. 203	निजी	कृषि	0.250
				आर.एस. 204	निजी	कृषि	0.035
				आर.एस. 209	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 210	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 211	निजी	कृषि	0.125
				आर.एस. 212	निजी	कृषि	0.230
				आर.एस. 213	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 214	प.ब.स.	कृषि	0.070
				आर.एस. 220	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 393	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 395	निजी	गैर कृषि	0.070
				आर.एस. 396	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 397	निजी	कृषि	0.330
				आर.एस. 398	निजी	कृषि	0.280
				आर.एस. 399	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 400	निजी	कृषि	0.085
				आर.एस. 403	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 404	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 405	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 406	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 408	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 409	प.ब.स.	कृषि	0.035
				आर.एस. 417	निजी	कृषि	0.100

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 423	निजी	कृषि	0.420
				आर.एस. 424	निजी	कृषि	0.045
				आर.एस. 425	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 429	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 99	निजी	कृषि	0.590
				आर.एस. 100	निजी	कृषि	0.410
				आर.एस. 101	निजी	कृषि	0.720
				आर.एस. 102	निजी	कृषि	0.135
			(17) खतराबाड़ी (जे.एल.नं. 166)	आर.एस. 74	प.बं.स.	कृषि	0.020
				आर.एस. 261	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 262	प.बं.स.	कृषि	0.320
				आर.एस. 264	निजी	कृषि	0.950
				आर.एस. 266	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 267	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 268	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 270	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 290	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 300	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 301	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 316	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 317	निजी	कृषि	0.250
				आर.एस. 319	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 322	प.बं.स.	कृषि	0.440
				आर.एस. 323	निजी	कृषि	0.110
				आर.एस. 324	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 327	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 328	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 350	प.बं.स.	कृषि	0.050
				आर.एस. 351	निजी	कृषि	0.320
				आर.एस. 352	निजी	कृषि	0.560
				आर.एस. 353	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 357	निजी	कृषि	0.240
				आर.एस. 358	निजी	कृषि	0.490
				आर.एस. 60	निजी	कृषि	0.045
				आर.एस. 61	निजी	कृषि	0.370
				आर.एस. 62	निजी	कृषि	0.110
				आर.एस. 64	निजी	कृषि	0.410
				आर.एस. 68	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 99	निजी	कृषि	0.340
				आर.एस. 101	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 106	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 204	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 205	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 206	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 208	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 1	निजी	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 2	निजी	गैर कृषि	0.070
				एल.आर. 3	प.बं.स.	गैर कृषि	0.450

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 6	निजी	कृषि	0.360
				एल.आर. 41	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 42	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 43	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 44	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 45	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 49	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 53	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 57	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 58	निजी	कृषि	0.020
			(18) पाचलोहा (जे.एल.नं. 164)	आर.एस. 195	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 197	निजी	कृषि	0.500
				आर.एस. 198	निजी	कृषि	0.400
				आर.एस. 201	निजी	कृषि	0.035
				आर.एस. 215	निजी	कृषि	0.035
				आर.एस. 216	प.बं.स.	कृषि	0.040
				आर.एस. 22	निजी	कृषि	0.350
				आर.एस. 23	निजी	कृषि	0.420
				आर.एस. 27	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 28	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 153	निजी	कृषि	0.440
				आर.एस. 154	निजी	कृषि	0.550
				आर.एस. 169	निजी	कृषि	0.280
				आर.एस. 170	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 171	प.बं.स.	कृषि	0.070
				आर.एस. 188	निजी	कृषि	0.065
				आर.एस. 193	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 194	निजी	कृषि	0.030
			(19) बसन्तगछ (जे.एल.नं. 167)	आर.एस. 745	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 746	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 747	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 748	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 752	निजी	कृषि	0.110
			(20) दलमादह (जे.एल.नं. 163)	एल.आर. 237	निजी	कृषि	0.210
				एल.आर. 224	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 226	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 227	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 231	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 232	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 235	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 236	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 238	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 239	निजी	कृषि	0.650
				एल.आर. 240	प.बं.स.	गैर कृषि	0.050
				एल.आर. 241	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 242	निजी	कृषि	0.080



1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 244	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 245	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 247	प.बं.स.	गैर कृषि	0.070
			(21) सालामपुर (जे.एल.नं. 162)	आर.एस. 107	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 108	प.बं.स.	कृषि	0.010
				आर.एस. 109	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 110	निजी	कृषि	0.460
				आर.एस. 136	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 137	निजी	कृषि	0.260
				आर.एस. 138	निजी	कृषि	0.500
				आर.एस. 139	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 140	निजी	कृषि	0.045
				आर.एस. 258	निजी	कृषि	0.300
				आर.एस. 259	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 423	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 424	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 425	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 428	प.बं.स.	कृषि	0.025
				आर.एस. 430	निजी	कृषि	0.300
				आर.एस. 435	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 454	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 464	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 476	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 479	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 480	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 481	प.बं.स.	गैर कृषि	0.030
				आर.एस. 559	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 561	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 562	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 563	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 567	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 568	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 569	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 570	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 571	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 572	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 574	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 575	निजी	कृषि	0.110
				आर.एस. 1	निजी	कृषि	0.920
				आर.एस. 4	निजी	कृषि	0.085
				आर.एस. 5	निजी	गैर कृषि	0.100
				आर.एस. 6	निजी	कृषि	0.210
				आर.एस. 7	निजी	कृषि	1.190
				आर.एस. 8	निजी	गैर कृषि	0.850
				आर.एस. 17	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 18	निजी	कृषि	0.460
				आर.एस. 19	निजी	कृषि	0.475
				आर.एस. 24	निजी	गैर कृषि	0.315

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 28	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 29	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 74	निजी	कृषि	0.230
				आर.एस. 75	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 76	प.ब.स.	गैर कृषि	0.250
				आर.एस. 77	निजी	कृषि	0.190
				आर.एस. 78	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 85	प.ब.स.	गैर कृषि	0.100
				आर.एस. 106	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 333	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 337	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 338	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 339	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 368	प.ब.स.	गैर कृषि	0.020
			(22) धनपाड़ा (जे.एल.नं. 161)	आर.एस. 547	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 548	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 1	निजी	गैर कृषि	0.800
				आर.एस. 4	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 5	प.ब.स.	कृषि	0.005
				आर.एस. 25	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 26	निजी	कृषि	0.240
				आर.एस. 27	प.ब.स.	कृषि	0.310
				आर.एस. 28	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 30	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 31	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 32	निजी	कृषि	0.280
				आर.एस. 33	निजी	कृषि	0.190
				आर.एस. 34	निजी	कृषि	0.015
				आर.एस. 35	निजी	कृषि	1.120
				आर.एस. 36	निजी	गैर कृषि	0.360
				आर.एस. 38	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 39	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 43	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 44	निजी	कृषि	0.580
				आर.एस. 45	निजी	कृषि	0.320
				आर.एस. 46	निजी	कृषि	0.500
				आर.एस. 47	निजी	कृषि	0.420
				आर.एस. 48	निजी	कृषि	0.750
				आर.एस. 50	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 51	निजी	कृषि	0.380
				आर.एस. 52	निजी	कृषि	0.370
				आर.एस. 53	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 59	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 88	निजी	कृषि	0.700
				आर.एस. 89	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 90	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 112	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 113	प.ब.स.	गैर कृषि	0.820

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 114	निजी	गैर कृषि	0.015
				एल.आर. 470	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 471	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 472	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 473	निजी	कृषि	0.390
				एल.आर. 474	निजी	गैर कृषि	0.040
				एल.आर. 475	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 476	निजी	कृषि	0.550
				एल.आर. 477	प.बं.स.	गैर कृषि	0.080
				एल.आर. 478	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 479	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 480	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 481	निजी	कृषि	0.430
				एल.आर. 484	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 485	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 486	निजी	कृषि	0.280
				एल.आर. 487	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 488	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 492	प.बं.स.	कृषि	0.640
				एल.आर. 493	निजी	कृषि	0.310
				एल.आर. 494	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 495	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 496	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 497	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 498	प.बं.स.	कृषि	0.060
				एल.आर. 499	प.बं.स.	कृषि	0.390
				एल.आर. 513	प.बं.स.	गैर कृषि	0.095
				एल.आर. 518	निजी	गैर कृषि	0.040
				एल.आर. 519	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 521	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 522	निजी	गैर कृषि	0.100
				एल.आर. 523	निजी	कृषि	0.530
				एल.आर. 548	निजी	कृषि	0.230
				एल.आर. 550	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 551	निजी	गैर कृषि	0.040
				एल.आर. 552	निजी	कृषि	0.360
				एल.आर. 553	प.बं.स.	गैर कृषि	0.005
				एल.आर. 554	निजी	कृषि	1.100
				एल.आर. 524/ 1011	निजी	गैर कृषि	0.015
			(23) पान्डेपुर (जे.एल.नं. 154)	आर.एस. 375	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 376	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 377	निजी	कृषि	0.640
				आर.एस. 378	निजी	कृषि	0.500
				आर.एस. 379	निजी	कृषि	0.390
				आर.एस. 380	निजी	कृषि	0.250
				आर.एस. 384	निजी	कृषि	1.700
				आर.एस. 385	निजी	कृषि	0.070

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 407	निजी	कृषि	0.950
				आर.एस. 408	निजी	कृषि	0.260
				आर.एस. 409	निजी	कृषि	0.210
				आर.एस. 414	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 416	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 417	निजी	गैर कृषि	0.180
				आर.एस. 418	निजी	कृषि	0.360
				आर.एस. 419	निजी	कृषि	0.460
				आर.एस. 426	निजी	कृषि	0.440
				आर.एस. 508	प.ब.स.	गैर कृषि	0.100
				आर.एस. 509	निजी	गैर कृषि	0.090
				आर.एस. 510	निजी	कृषि	1.180
				आर.एस. 511	निजी	कृषि	0.520
				आर.एस. 512	निजी	कृषि	0.320
				आर.एस. 513	निजी	गैर कृषि	0.190
				आर.एस. 159	निजी	कृषि	0.960
				आर.एस. 163	निजी	कृषि	1.100
				आर.एस. 164	निजी	कृषि	0.950
				आर.एस. 165	निजी	कृषि	0.880
				आर.एस. 173	निजी	कृषि	1.160
				आर.एस. 193	निजी	कृषि	0.030
				आर.एस. 197	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 198	निजी	कृषि	0.270
				आर.एस. 199	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 200	निजी	कृषि	0.210
				आर.एस. 201	निजी	कृषि	0.480
				आर.एस. 202	निजी	कृषि	0.420
				आर.एस. 203	निजी	कृषि	0.450
				आर.एस. 206	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 207	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 210	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 211	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 212	निजी	कृषि	0.430
				आर.एस. 213	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 214	निजी	कृषि	0.420
				आर.एस. 215	प.ब.स.	गैर कृषि	0.010
			(24) सोहार (जे.एल.नं. 153)	आर.एस. 1123	निजी	कृषि	0.005
				आर.एस. 1124	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 1125	निजी	कृषि	0.530
				आर.एस. 1277	निजी	कृषि	0.950
				आर.एस. 1279	निजी	कृषि	0.560
				आर.एस. 1280	निजी	कृषि	1.100
				आर.एस. 1285	निजी	कृषि	2.200
				आर.एस. 1286	निजी	कृषि	2.000
				आर.एस. 1495	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 934	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 936	निजी	कृषि	0.045
				आर.एस. 937	निजी	कृषि	0.500

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 938	निजी	कृषि	2.200
				आर.एस. 943	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 946	निजी	कृषि	0.840
				आर.एस. 1059	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 1060	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 1061	निजी	कृषि	0.290
				आर.एस. 1062	निजी	कृषि	0.540
				आर.एस. 1063	निजी	कृषि	0.460
				आर.एस. 1065	निजी	गैर कृषि	0.300
				आर.एस. 1084	निजी	कृषि	1.360
				आर.एस. 1085	निजी	कृषि	0.730
				आर.एस. 1086	निजी	कृषि	0.570
				आर.एस. 403	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 405	निजी	कृषि	0.490
				आर.एस. 406	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 419	निजी	कृषि	1.250
				आर.एस. 420	निजी	कृषि	1.650
				आर.एस. 421	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 422	निजी	कृषि	0.210
				आर.एस. 423	प.ब.स.	कृषि	0.410
				आर.एस. 434	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 439	निजी	कृषि	0.670
				आर.एस. 438	निजी	कृषि	0.210
				आर.एस. 440	निजी	कृषि	0.860
				आर.एस. 441	निजी	कृषि	0.400
				आर.एस. 454	निजी	कृषि	0.220
				आर.एस. 455	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 456	निजी	कृषि	0.200
				आर.एस. 458	निजी	कृषि	0.960
				आर.एस. 462	निजी	कृषि	0.580
				आर.एस. 932	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 933	निजी	कृषि	0.750
				आर.एस. 939	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 49	निजी	कृषि	0.065
				आर.एस. 50	निजी	कृषि	0.670
				आर.एस. 51	निजी	कृषि	0.620
				आर.एस. 55	निजी	कृषि	0.010
				आर.एस. 56	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 57	निजी	कृषि	0.560
				आर.एस. 58	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 59	निजी	कृषि	0.360
				आर.एस. 60	निजी	कृषि	0.690
				आर.एस. 61	निजी	कृषि	0.860
				आर.एस. 62	निजी	कृषि	1.150
				आर.एस. 198	निजी	कृषि	0.300
				आर.एस. 199	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 460	निजी	गैर कृषि	0.280
				आर.एस. 461	निजी	कृषि	0.350
				आर.एस. 465	निजी	कृषि	0.340

1	2	3	4	5	6	7	8
			(25) मगेलिया (जे.एल.नं. 155)	एल.आर. 1	निजी	गैर कृषि	0.060
				एल.आर. 2	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 4	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 5	निजी	कृषि	0.460
				एल.आर. 6	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 5	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 9	निजी	कृषि	0.840
				एल.आर. 64	निजी	गैर कृषि	0.080
				एल.आर. 75	निजी	गैर कृषि	0.240
				एल.आर. 76	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 77	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 78	निजी	कृषि	0.900
				एल.आर. 82	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 83	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 85	निजी	गैर कृषि	0.120
				एल.आर. 86	निजी	कृषि	0.480
				एल.आर. 87	निजी	कृषि	0.120
			(26) रानीगन्ज (जे.एल.नं. 51)	एल.आर. 1326	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 1328	निजी	कृषि	0.400
				एल.आर. 1331	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 1327	निजी	कृषि	0.380
				एल.आर. 1330	निजी	कृषि	0.970
				एल.आर. 1177	निजी	कृषि	0.540
				एल.आर. 1178	निजी	गैर कृषि	0.370
				एल.आर. 1282	निजी	कृषि	0.035
				एल.आर. 1292	निजी	गैर कृषि	0.110
				एल.आर. 1293	निजी	गैर कृषि	0.930
				एल.आर. 1294	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 1297	निजी	कृषि	0.620
				एल.आर. 1298	निजी	कृषि	0.800
				एल.आर. 1299	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 1301	निजी	गैर कृषि	0.025
				एल.आर. 1302	निजी	कृषि	1.700
				एल.आर. 1303	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 1304	निजी	कृषि	0.275
				एल.आर. 1305	निजी	गैर कृषि	0.040
				एल.आर. 1306	निजी	गैर कृषि	0.160
				एल.आर. 1307	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 1308	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 1315	निजी	कृषि	0.790
				एल.आर. 1316	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 1324	निजी	कृषि	0.660
				एल.आर. 1325	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 1156	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 1157	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 1158	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 1159	निजी	गैर कृषि	0.020

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 1160	निजी	कृषि	0.380
				एल.आर. 1161	निजी	कृषि	0.490
				एल.आर. 1163	निजी	गैर कृषि	0.720
				एल.आर. 1164	निजी	गैर कृषि	0.050
				एल.आर. 1165	निजी	कृषि	0.460
				एल.आर. 1166	निजी	गैर कृषि	0.035
				एल.आर. 1170	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 1171	निजी	कृषि	0.730
				एल.आर. 1172	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 1173	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 1175	निजी	कृषि	0.450
				एल.आर. 1176	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 1179	निजी	कृषि	1.050
				एल.आर. 1180	निजी	कृषि	1.500
				एल.आर. 1335	निजी	गैर कृषि	0.010
				एल.आर. 385	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 393	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 394	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 395	निजी	कृषि	0.003
				एल.आर. 396	निजी	गैर कृषि	0.070
				एल.आर. 408	निजी	गैर कृषि	0.080
				एल.आर. 409	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 410	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 930	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 931	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 934	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 935	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 950	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 974	निजी	गैर कृषि	0.010
				एल.आर. 975	निजी	गैर कृषि	0.005
				एल.आर. 1110	निजी	गैर कृषि	0.060
				एल.आर. 1111	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 1115	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 1116	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 1117	निजी	कृषि	0.280
				एल.आर. 1121	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 1143	निजी	गैर कृषि	0.500
				एल.आर. 1144	निजी	गैर कृषि	0.090
				एल.आर. 1145	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 1146	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 1147	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 1148	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 1149	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 1153	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 1154	निजी	गैर कृषि	0.050
				एल.आर. 1155	निजी	कृषि	0.110
				एल.आर. 1334	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 16	निजी	गैर कृषि	0.070
				एल.आर. 17	निजी	गैर कृषि	0.060

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 18	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 20	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 21	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 22	निजी	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 23	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 178	निजी	कृषि	0.520
				एल.आर. 181	निजी	गैर कृषि	0.860
				एल.आर. 189	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 190	निजी	कृषि	0.090
				एल.आर. 191	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 192	निजी	कृषि	0.165
				एल.आर. 269	निजी	गैर कृषि	0.060
				एल.आर. 273	निजी	कृषि	0.430
				एल.आर. 290	निजी	कृषि	0.095
				एल.आर. 291	निजी	गैर कृषि	0.015
				एल.आर. 292	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 293	निजी	कृषि	0.120
				एल.आर. 294	निजी	गैर कृषि	0.260
				एल.आर. 346	निजी	कृषि	0.380
				एल.आर. 348	निजी	गैर कृषि	0.030
				एल.आर. 349	निजी	गैर कृषि	0.050
				एल.आर. 386	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 387	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 392	निजी	कृषि	0.130
				एल.आर. 411	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 415	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 416	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 417	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 422	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 424	निजी	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 425	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 426	निजी	कृषि	0.060
				एल.आर. 427	निजी	कृषि	0.050
			(27) बगेला (जे.एल.नं. 29)	आर.एस. 782	निजी	कृषि	0.740
				आर.एस. 783	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 907	निजी	कृषि	0.160
				आर.एस. 908	निजी	कृषि	0.290
				आर.एस. 911	निजी	गैर कृषि	0.085
				आर.एस. 912	निजी	गैर कृषि	0.030
				आर.एस. 913	निजी	गैर कृषि	0.035
				आर.एस. 914	निजी	कृषि	0.070
				आर.एस. 915	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 918	निजी	गैर कृषि	0.020
				आर.एस. 925	निजी	कृषि	0.310
				आर.एस. 926	निजी	गैर कृषि	0.100
				आर.एस. 1054	निजी	गैर कृषि	0.070
				आर.एस. 1055	निजी	कृषि	0.360
				आर.एस. 1081	निजी	गैर कृषि	0.025



1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 86	प.बं.स.	गैर कृषि	0.020
				एल.आर. 91	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 92	निजी	कृषि	0.070
				एल.आर. 94	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 204	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 206	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 207	निजी	कृषि	0.085
				एल.आर. 208	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 209	निजी	कृषि	0.230
				एल.आर. 212	निजी	कृषि	0.450
				एल.आर. 213	निजी	कृषि	0.370
				एल.आर. 216	निजी	कृषि	0.010
				एल.आर. 217	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 218	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 220	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 224	निजी	कृषि	0.500
				एल.आर. 225	निजी	कृषि	0.560
				एल.आर. 228	निजी	गैर कृषि	0.310
				एल.आर. 229	निजी	कृषि	0.005
				एल.आर. 230	निजी	कृषि	0.380
			(29) महम्मदपुर (जे.एल.नं. 26)	एल.आर. 379	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 520	निजी	कृषि	0.330
				एल.आर. 521	निजी	कृषि	0.140
				एल.आर. 522	निजी	कृषि	0.640
			(30) पश्चिम माटियारी (जे.एल.नं. 18)	एल.आर. 4	निजी	कृषि	0.035
				एल.आर. 5	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 27	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 28	निजी	कृषि	0.160
				एल.आर. 30	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 31	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 101	निजी	कृषि	0.040
				एल.आर. 102	निजी	कृषि	0.205
				एल.आर. 106	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 107	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 108	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 109	निजी	कृषि	0.260
				एल.आर. 110	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 120	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 121	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 122	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 123	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 124	निजी	कृषि	0.015
				एल.आर. 125	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 126	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 127	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 205	निजी	कृषि	0.240
				एल.आर. 209	निजी	कृषि	0.005

1	2	3	4	5	6	7	8
				आर.एस. 1085	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 1086	निजी	कृषि	0.045
				आर.एस. 1087	निजी	गैर कृषि	0.035
				आर.एस. 1088	निजी	गैर कृषि	0.035
				आर.एस. 1123	निजी	कृषि	0.380
				आर.एस. 1124	निजी	कृषि	0.080
				आर.एस. 1136	निजी	गैर कृषि	0.540
				आर.एस. 1137	निजी	कृषि	0.390
				आर.एस. 1138	निजी	कृषि	0.640
				आर.एस. 1144	निजी	कृषि	0.360
				आर.एस. 1145	निजी	कृषि	0.280
				आर.एस. 1146	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 1163	निजी	कृषि	0.180
				आर.एस. 1164	निजी	गैर कृषि	0.100
				आर.एस. 1165	निजी	गैर कृषि	0.050
				आर.एस. 1166	निजी	कृषि	0.240
				आर.एस. 1167	निजी	कृषि	0.410
				आर.एस. 683	निजी	कृषि	0.035
				आर.एस. 684	निजी	कृषि	0.025
				आर.एस. 685	निजी	गैर कृषि	0.015
				आर.एस. 686	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 687	निजी	कृषि	0.050
				आर.एस. 734	निजी	कृषि	0.170
				आर.एस. 735	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 736	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 737	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 738	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 743	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 744	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 780	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 781	निजी	कृषि	0.150
				आर.एस. 1092	निजी	कृषि	0.550
				आर.एस. 1093	निजी	गैर कृषि	0.100
				आर.एस. 1094	निजी	कृषि	0.060
				आर.एस. 1100	निजी	कृषि	1.250
				आर.एस. 1106	निजी	कृषि	1.100
				आर.एस. 1108	निजी	कृषि	0.540
				आर.एस. 1111	निजी	कृषि	0.130
				आर.एस. 1112	निजी	कृषि	0.090
				आर.एस. 1114	निजी	कृषि	0.120
				आर.एस. 1115	निजी	कृषि	0.140
				आर.एस. 1116	निजी	कृषि	0.680
				आर.एस. 1117	निजी	कृषि	0.370
			(28) शीतलपुर (जे.एल.नं. 27)	एल.आर. 70	निजी	कृषि	0.420
				एल.आर. 71	निजी	कृषि	0.220
				एल.आर. 73	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 75	निजी	कृषि	0.200
				एल.आर. 77	निजी	कृषि	0.110

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 210	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 216	निजी	गैर कृषि	0.030
			(31) सरसर (जे.एल.नं. 17)	एल.आर. 26	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 27	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 42.	निजी	कृषि	0.560
				एल.आर. 43	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 48	निजी	गैर कृषि	0.360
				एल.आर. 49	निजी	गैर कृषि	0.340
				एल.आर. 50	निजी	गैर कृषि	0.420
				एल.आर. 51	निजी	गैर कृषि	0.030
				एल.आर. 52	निजी	गैर कृषि	0.350
				एल.आर. 53	निजी	गैर कृषि	0.400
				एल.आर. 54	निजी	गैर कृषि	0.150
				एल.आर. 55	निजी	गैर कृषि	0.130
				एल.आर. 56	निजी	कृषि	0.390
				एल.आर. 57	निजी	कृषि	0.300
				एल.आर. 58	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 59	निजी	कृषि	0.270
				एल.आर. 60	निजी	गैर कृषि	0.320
				एल.आर. 61	निजी	कृषि	0.250
				एल.आर. 63	निजी	कृषि	0.170
				एल.आर. 67	निजी	गैर कृषि	0.140
				एल.आर. 68	निजी	गैर कृषि	0.140.
				एल.आर. 69	निजी	गैर कृषि	0.140
				एल.आर. 70	निजी	गैर कृषि	0.135
				एल.आर. 71	निजी	गैर कृषि	0.090
				एल.आर. 72	निजी	गैर कृषि	0.220
				एल.आर. 248	निजी	कृषि	0.150
				एल.आर. 249	निजी	कृषि	0.065
				एल.आर. 173	निजी	कृषि	0.090
			(32) महेशवाथना (जे.एल.नं. 159)	आर.एस. 131	निजी	कृषि	0.020
				आर.एस. 132	निजी	कृषि	0.040
				आर.एस. 133	निजी	कृषि	0.100
				आर.एस. 134	निजी	कृषि	0.275
				आर.एस. 135	निजी	कृषि	0.700
				आर.एस. 137	प.ब.स.	गैर कृषि	0.060
			(33) भाटबार (जे.एल.नं. 160)	एल.आर. 190	निजी	कृषि	1.580
				एल.आर. 191	निजी	कृषि	0.075
				एल.आर. 193	निजी	गैर कृषि	0.130
				एल.आर. 195	निजी	कृषि	0.020
				एल.आर. 198	निजी	गैर कृषि	0.590
				एल.आर. 199	निजी	गैर कृषि	1.210
				एल.आर. 200	निजी	कृषि	0.080
				एल.आर. 222	निजी	कृषि	0.390
				एल.आर. 232	प.ब.स.	गैर कृषि	0.095
				एल.आर. 279	निजी	कृषि	0.060

1	2	3	4	5	6	7	8
				एल.आर. 280	निजी	कृषि	0.970
				एल.आर. 281	निजी	कृषि	0.320
				एल.आर. 203	निजी	कृषि	0.610
				एल.आर. 204	निजी	कृषि	0.730
				एल.आर. 205	निजी	कृषि	1.070
				एल.आर. 206	निजी	कृषि	0.370
				एल.आर. 207	निजी	कृषि	0.975
				एल.आर. 209	निजी	कृषि	1.880
			(34) किसमत आलतापुर (जे.एल.नं. 204)	एल.आर. 96	निजी	कृषि	0.025
				एल.आर. 97	निजी	कृषि	0.050
				एल.आर. 99	प.ब.स.	कृषि	0.015
				एल.आर. 100	प.ब.स.	कृषि	0.010
				एल.आर. 105	निजी	कृषि	0.030
				एल.आर. 106	प.ब.स.	कृषि	0.045
				एल.आर. 107	प.ब.स.	कृषि	0.025
			(35) पश्चिम महेशपुर (जे.एल.नं. 28)	एल.आर. 80	निजी	कृषि	0.180
				एल.आर. 82	निजी	कृषि	0.100
				एल.आर. 85	निजी	कृषि	0.820
				एल.आर. 88	निजी	गैर कृषि	0.065
			(36) झाबराडांगी (जे.एल.नं. 213)	आर.एस. 34	प.ब.स.	कृषि	0.245
				आर.एस. 35	प.ब.स.	कृषि	0.025
				आर.एस. 36	निजी	कृषि	0.260
				आर.एस. 38	निजी	कृषि	0.320
				आर.एस. 864	निजी	कृषि	0.060

[फा. स. भाराप्र/तक./एलए/रा.रा. 34/रायगंज-दलकोला/3ए/2006/एलए-1ई/तक.]

प्रभाकर, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2009

**S.O. 3211(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), including the bypasses, maintenance, management and operation of National Highway No 34, in the stretch of land from Km 397.733 to Km 452.700 (except Dalkhola Bypass) in District Uttar Dinajpur, in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Additional District Magistrate (Land Acquisition), Uttar Dinajpur District, Office of the District Magistrate, Dist-Uttar Dinajpur, in writing and shall set out the grounds thereof and

the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 397.733 to Km 452.700 (except Dalkhola Bypass) of National Highway No. 34 in the State of West Bengal.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in acres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Dinajpur	1. Raiganj	(1) Paschim Mahadebpur (J. L. No. 204)	L.R. 7	Private	Non-Agri	0.280
				L.R. 8	Private	Non-Agri	1.360
				L.R. 10	Private	Non-Agri	0.220
				L.R. 11	Private	Agri	0.200
				L.R. 172	Private	Agri	0.100
				L.R. 173	Private	Agri	0.110
				L.R. 174	Private	Agri	0.280
				L.R. 175	Private	Non-Agri	0.160
				L.R. 179	Private	Agri	0.680
				L.R. 184	Private	Non-Agri	0.005
				L.R. 723	Private	Non-Agri	0.460
				L.R. 724	Private	Agri	0.020
				L.R. 725	Private	Non-Agri	0.160
			(2) Rupahar (J. L. No. 202)	L.R. 637	Private	Agri	0.270
				L.R. 638	Private	Agri	0.320
				L.R. 639	Private	Agri	0.050
				L.R. 644	Private	Agri	0.170
				L.R. 645	Private	Agri	0.340
				L.R. 646	Private	Agri	0.710
				L.R. 647	Private	Agri	0.680
				L.R. 648	Private	Agri	0.030
				L.R. 652	Private	Agri	0.130
				L.R. 653	Private	Agri	0.160
				L.R. 654	Private	Agri	1.250
				L.R. 655	Private	Agri	0.420
				L.R. 657	Private	Agri	1.200
				L.R. 658	Private	Agri	0.640

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 659	Private	Agri	0.300
				L.R. 660	Private	Agri	0.420
				L.R. 662	Private	Agri	0.010
				L.R. 823	Private	Agri	0.155
			(3) Kasba (J. L. No. 145)	L.R. 2163	Private	Agri	0.015
				L.R. 2164	Private	Agri	0.320
				L.R. 2165	Private	Agri	1.620
				L.R. 2166	GoWB	Agri	0.010
				L.R. 2177	Private	Agri	0.015
				L.R. 2197	Private	Agri	0.015
				L.R. 2198	GoWB	Non-Agri	0.640
				L.R. 2201	GoWB	Agri	0.010
				L.R. 2167	Private	Agri	0.010
				L.R. 2171	Private	Agri	0.350
				L.R. 2173	Private	Agri	0.640
				L.R. 2174	Private	Agri	0.660
			(4) Maraikura (J. L. No. 144)	L.R. 167	Private	Agri	0.070
				L.R. 168	Private	Agri	0.180
				L.R. 169	Private	Agri	0.745
				L.R. 170	Private	Agri	0.960
				L.R. 318	Private	Agri	0.820
				L.R. 319	Private	Agri	1.420
				L.R. 320	Private	Agri	0.175
				L.R. 322	Private	Agri	0.015
				L.R. 323	Private	Agri	0.430
				L.R. 324	Private	Agri	0.020
				L.R. 325	GoWB	Agri	0.110
				L.R. 304	Private	Agri	0.250
				L.R. 310	Private	Agri	0.160
				L.R. 315	Private	Agri	0.450
				L.R. 317	Private	Agri	1.120
			(5) Abhinagar (J. L. No. 09)	L.R. 58	Private	Agri	0.200
				L.R. 59	Private	Agri	0.450
				L.R. 60	Private	Agri	0.400
				L.R. 61	Private	Agri	0.020
				L.R. 62	Private	Agri	0.130
				L.R. 65	Private	Non-Agri	0.005
				L.R. 66	Private	Agri	0.140
				L.R. 67	Private	Agri	0.050
				L.R. 347	Private	Agri	0.610
				L.R. 348	Private	Agri	0.250
				L.R. 349	Private	Agri	1.260
				L.R. 350	Private	Agri	0.075
				L.R. 351	GoWB	Agri	0.020
				L.R. 5	Private	Agri	0.010
				L.R. 6	Private	Agri	0.210
				L.R. 7	Private	Agri	0.300
				L.R. 8	Private	Agri	0.160
				L.R. 9	Private	Agri	0.340
				L.R. 10	Private	Agri	0.140

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 11	Private	Agri	0.100
				L.R. 12	Private	Agri	0.220
				L.R. 14	Private	Agri	0.015
				L.R. 15	Private	Agri	0.530
				L.R. 16	Private	Agri	0.480
				L.R. 17	Private	Agri	0.220
				L.R. 22	Private	Non-Agri	0.070
				L.R. 27	Private	Agri	0.170
				L.R. 28	Private	Agri	0.240
				L.R. 29	Private	Agri	0.300
				L.R. 30	Private	Agri	0.240
				L.R. 31	Private	Agri	0.060
				L.R. 33	Private	Agri	0.180
				L.R. 34	Private	Agri	0.540
				L.R. 35	Private	Agri	0.110
				L.R. 43	Private	Agri	0.110
				L.R. 44	Private	Agri	0.910
				L.R. 45	Private	Agri	0.240
				L.R. 46	Private	Agri	0.060
				L.R. 47	Private	Agri	0.030
				L.R. 52	Private	Agri	0.250
				L.R. 53	Private	Agri	0.100
				L.R. 54	Private	Agri	0.680
				L.R. 56	Private	Agri	0.100
				L.R. 57	Private	Agri	0.390
				L.R. 69	Private	Agri	0.210
				L.R. 70	Private	Agri	0.040
				L.R. 182	Private	Agri	0.005
				L.R. 530	Private	Agri	0.160
				L.R. 531	Private	Agri	0.540
				L.R. 532	Private	Agri	0.050
				L.R. 533	Private	Agri	1.050
			(6) Tenahari (J. L. No. 143)	L.R. 1177	Private	Agri	0.050
				L.R. 1191	Private	Agri	0.005
				L.R. 1192	Private	Agri	0.065
				L.R. 1193	Private	Agri	0.100
				L.R. 1194	Private	Agri	0.130
				L.R. 1195	Private	Agri	0.290
				L.R. 1196	Private	Agri	0.120
				L.R. 1197	Private	Agri	0.160
				L.R. 1200	Private	Agri	0.015
				L.R. 1201	Private	Agri	0.330
				L.R. 1202	Private	Agri	0.210
				L.R. 1203	Private	Agri	0.240
				L.R. 1204	Private	Agri	0.290
				L.R. 1205	Private	Agri	0.030
				L.R. 1207	Private	Agri	0.110
				L.R. 1208	Private	Agri	0.340
				L.R. 1209	Private	Agri	0.150
				L.R. 1210	Private	Agri	0.600
				L.R. 1215	Private	Agri	0.085

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 1216	Private	Agri	0.115
				L.R. 1332	Private	Agri	0.810
				L.R. 1333	Private	Agri	0.080
				L.R. 1337	Private	Agri	0.010
				L.R. 1338	Private	Agri	0.190
				L.R. 1339	Private	Agri	0.190
				L.R. 1340	Private	Agri	0.020
				L.R. 1341	Private	Agri	0.090
				L.R. 1342	Private	Agri	0.145
				L.R. 1343	Private	Agri	0.390
				L.R. 1344	Private	Agri	0.440
				L.R. 1345	Private	Agri	0.200
				L.R. 1346	Private	Agri	0.210
				L.R. 1347	Private	Agri	0.150
				L.R. 1348	Private	Agri	0.110
				L.R. 1351	Private	Agri	0.015
				L.R. 1358	Private	Non-Agri	0.420
				L.R. 1359	Private	Agri	0.145
				L.R. 1360	Private	Non-Agri	0.120
				L.R. 1361	Private	Agri	0.135
				L.R. 1362	Private	Agri	0.265
				L.R. 1363	Private	Agri	0.260
				L.R. 1364	Private	Agri	0.140
				L.R. 1365	Private	Agri	0.125
				L.R. 1366	Private	Agri	0.080
				L.R. 1367	Private	Agri	0.130
				L.R. 1368	Private	Agri	0.140
				L.R. 1369	Private	Agri	0.130
				L.R. 1370	Private	Agri	0.140
				L.R. 1371	Private	Agri	0.120
				L.R. 1372	Private	Agri	0.130
				L.R. 1373	Private	Agri	0.150
				L.R. 1397	Private	Agri	0.015
				L.R. 1444	Private	Non-Agri	0.130
				L.R. 1485	Private	Agri	0.280
				L.R. 1486	Private	Agri	0.020
				L.R. 1677	Private	Agri	0.025
				L.R. 284	Private	Non-Agri	1.630
				L.R. 285	Private	Agri	0.480
				L.R. 286	Private	Non-Agri	0.620
				L.R. 287	Private	Agri	0.420
				L.R. 297	Private	Agri	0.090
				L.R. 298	Private	Agri	0.300
				L.R. 299	Private	Agri	0.240
				L.R. 300	Private	Agri	0.160
				L.R. 316	Private	Agri	0.005
				L.R. 317	Private	Agri	0.080
				L.R. 318	Private	Agri	0.680
				L.R. 319	Private	Agri	0.230
				L.R. 320	Private	Agri	0.220
				L.R. 321	Private	Agri	0.130
				L.R. 323	Private	Agri	0.215



1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 324	Private	Agri	0.130
				L.R. 325	Private	Agri	0.530
				L.R. 326	Private	Non-Agri	0.450
				L.R. 343	Private	Non-Agri	0.150
				L.R. 363	Private	Agri	0.030
				L.R. 1133	Private	Agri	0.340
				L.R. 1134	Private	Agri	0.240
				L.R. 1135	Private	Agri	0.170
				L.R. 1136	Private	Agri	0.470
				L.R. 1137	Private	Agri	0.220
				L.R. 1138	Private	Agri	0.600
				L.R. 1467	Private	Agri	0.045
				L.R. 1736	Private	Non-Agri	0.030
				L.R. 33	Private	Agri	0.460
				L.R. 129	Private	Agri	0.310
				L.R. 130	Private	Agri	0.120
				L.R. 131	Private	Non-Agri	1.350
				L.R. 133	Private	Agri	0.110
				L.R. 135	Private	Agri	0.420
				L.R. 163	Private	Agri	0.590
				L.R. 164	Private	Agri	0.520
				L.R. 165	Private	Agri	0.050
				L.R. 166	Private	Agri	0.150
				L.R. 167	Private	Agri	0.240
				L.R. 168	Private	Non-Agri	0.600
				L.R. 169	Private	Agri	0.110
				L.R. 170	Private	Agri	0.520
				L.R. 174	Private	Agri	0.020
				L.R. 175	Private	Agri	2.130
				L.R. 348	Private	Agri	0.100
				L.R. 1509	Private	Agri	0.170
				L.R. 1510	Private	Agri	0.010
				L.R. 1543	Private	Agri	0.120
				L.R. 1733	Private	Non-Agri	0.100
				L.R. 1734	Private	Agri	0.080
				L.R. 38	Private	Agri	1.170
				L.R. 39	Private	Agri	1.200
				L.R. 40	Private	Agri	0.135
				L.R. 44	Private	Agri	0.400
				L.R. 56	Private	Agri	0.045
				L.R. 57	Private	Agri	1.350
				L.R. 58	Private	Agri	0.660
				L.R. 59	Private	Agri	0.200
				L.R. 60	Private	Agri	0.220
				L.R. 61	Private	Agri	1.320
				L.R. 161	Private	Agri	0.010
				L.R. 349	Private	Non-Agri	0.200
				L.R. 1541	Private	Agri	0.920
			(7) Abher (J. L. No. 121)	L.R. 183	GoWB	Non-Agri	0.740
				L.R. 186	Private	Agri	0.085

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 189	Private	Agri	0.310
				L.R. 190	Private	Agri	0.680
				L.R. 192	Private	Agri	0.040
				L.R. 193	Private	Agri	0.535
				L.R. 194	Private	Agri	0.080
				L.R. 197	Private	Agri	0.370
				L.R. 199	Private	Agri	1.250
				L.R. 203	Private	Agri	0.070
				L.R. 204	Private	Agri	0.320
				L.R. 205	GoWB	Agri	0.700
				L.R. 206	Private	Agri	0.010
				L.R. 433	Private	Agri	0.650
				L.R. 516	Private	Non-Agri	1.060
			(8) Bhati (J. L. No. 120)	L.R. 51	Private	Non-Agri	0.290
				L.R. 153	Private	Agri	0.070
				L.R. 154	Private	Agri	0.550
				L.R. 158	Private	Agri	0.005
				L.R. 159	Private	Agri	0.720
				L.R. 160	Private	Agri	1.920
				L.R. 161	Private	Agri	1.340
				L.R. 162	Private	Agri	0.010
				L.R. 178	Private	Agri	0.140
				L.R. 179	Private	Agri	0.010
				L.R. 180	Private	Agri	0.670
				L.R. 181	Private	Agri	0.460
				L.R. 182	Private	Agri	0.200
				L.R. 183	Private	Non-Agri	0.200
				L.R. 211	Private	Agri	0.490
				L.R. 212	Private	Agri	0.080
				L.R. 213	Private	Agri	0.310
				L.R. 214	Private	Agri	0.650
				L.R. 215	Private	Agri	0.260
				L.R. 216	Private	Agri	0.400
				L.R. 217	Private	Agri	0.120
				L.R. 219	Private	Agri	1.540
				L.R. 235	Private	Agri	0.330
				L.R. 287	GoWB	Agri	0.070
				L.R. 289	Private	Agri	0.050
				L.R. 291	Private	Agri	0.360
				L.R. 292	Private	Agri	0.090
			(9) Bharia (J. L. No. 118)	L.R. 10	Private	Agri	1.010
				L.R. 11	Private	Agri	0.760
				L.R. 13	Private	Agri	0.480
				L.R. 17	Private	Non-Agri	0.090
				L.R. 43	Private	Agri	0.020
				L.R. 44	Private	Agri	0.525
				L.R. 45	Private	Agri	0.850
				L.R. 46	Private	Agri	0.190
				L.R. 47	Private	Agri	0.340
				L.R. 48	Private	Agri	1.850

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 83	Private	Agri	0.670
				L.R. 84	Private	Agri	0.450
				L.R. 85	Private	Agri	0.200
				L.R. 86	Private	Agri	0.960
				L.R. 87	Private	Agri	0.150
				L.R. 88	GoWB	Agri	0.350
				L.R. 89	Private	Agri	0.050
				L.R. 150	Private	Agri	0.115
				L.R. 151	Private	Agri	0.095
			(10) Basudebpur (J. L. No. 115)	L.R. 42	Private	Agri	0.070
				L.R. 43	Private	Agri	0.550
				L.R. 50	Private	Agri	0.065
				L.R. 54	Private	Agri	0.120
				L.R. 56	Private	Agri	0.260
				L.R. 57	Private	Agri	0.160
				L.R. 58	Private	Non-Agri	0.400
				L.R. 59	Private	Non-Agri	0.400
				L.R. 140	Private	Non-Agri	0.130
				L.R. 175	Private	Agri	0.400
				L.R. 176	Private	Agri	0.180
				L.R. 177	Private	Agri	0.115
				L.R. 178	Private	Agri	0.110
				L.R. 182	Private	Agri	0.200
				L.R. 183	Private	Agri	0.350
				L.R. 184	Private	Agri	0.100
				L.R. 185	Private	Agri	0.190
				L.R. 186	Private	Agri	0.110
				L.R. 187	Private	Agri	0.220
				L.R. 188	Private	Agri	0.260
				L.R. 189	Private	Agri	0.420
				L.R. 190	Private	Agri	0.320
				L.R. 222	Private	Agri	0.250
				L.R. 225	Private	Agri	0.220
				L.R. 226	Private	Agri	0.180
				L.R. 227	Private	Agri	0.080
				L.R. 228	Private	Agri	0.070
				L.R. 229	Private	Agri	0.110
				L.R. 230	Private	Agri	0.180
				L.R. 231	Private	Agri	0.050
				L.R. 232	Private	Agri	0.340
				L.R. 233	Private	Agri	0.190
				L.R. 236	Private	Agri	0.295
				L.R. 237	Private	Agri	0.260
				L.R. 238	Private	Agri	0.600
				L.R. 239	Private	Agri	0.390
				L.R. 240	Private	Agri	0.150
				L.R. 256	GoWB	Agri	0.015
				L.R. 257	Private	Agri	0.250
				L.R. 258	GoWB	Agri	0.600
				L.R. 259	Private	Agri	0.170

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 260	Private	Agri	0.150
				L.R. 261	Private	Agri	0.190
				L.R. 264	Private	Agri	0.090
				L.R. 33	Private	Agri	0.400
				L.R. 35	Private	Agri	1.240
				L.R. 36	Private	Agri	0.240
				L.R. 37	Private	Agri	0.130
				L.R. 38	Private	Agri	0.580
				L.R. 41	Private	Agri	0.010
				L.R. 44	Private	Agri	0.550
				L.R. 45	Private	Agri	0.420
				L.R. 106	Private	Agri	0.070
				L.R. 107	Private	Agri	0.130
				L.R. 108	Private	Agri	0.190
				L.R. 109	Private	Agri	1.000
				L.R. 111	Private	Agri	0.600
				L.R. 597	Private	Agri	0.200
			(11) Maharajpur (J. L. No. 114)	R.S. 284	Private	Agri	0.160
				R.S. 285	Private	Agri	0.640
				R.S. 287	Private	Agri	0.750
				R.S. 485	Private	Agri	0.175
				R.S. 486	Private	Agri	0.060
				R.S. 487	Private	Agri	0.010
				R.S. 488	Private	Agri	0.210
				R.S. 489	GoWB	Agri	1.040
				R.S. 490	Private	Agri	0.010
				R.S. 529	Private	Agri	0.015
				R.S. 530	Private	Agri	0.015
				R.S. 534	Private	Non-Agri	0.110
				R.S. 221	Private	Agri	1.280
				R.S. 227	Private	Agri	0.850
				R.S. 228	Private	Agri	0.130
				R.S. 229	Private	Agri	0.160
				R.S. 230	Private	Agri	0.070
				R.S. 231	Private	Agri	0.190
				R.S. 232	Private	Agri	0.430
				R.S. 257	Private	Agri	0.060
				R.S. 258	Private	Agri	0.150
				R.S. 259	Private	Agri	0.130
				R.S. 269	Private	Agri	0.650
				R.S. 272	Private	Agri	0.980
				R.S. 273	Private	Agri	1.000
				R.S. 274	Private	Agri	0.390
				R.S. 275	Private	Agri	0.460
				R.S. 276	Private	Agri	0.550
				R.S. 277	Private	Agri	0.280
				R.S. 278	Private	Agri	0.220
				R.S. 286	Private	Agri	1.140
				R.S. 290	Private	Agri	0.025
				R.S. 523	Private	Agri	0.450

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 543	Private	Agri	0.100
				R.S. 544	Private	Agri	0.150
			(12) Chapduar (J. L. No. 108)	R.S. 1359	Private	Agri	0.045
				R.S. 1360	Private	Agri	2.060
				R.S. 1405	Private	Non-Agri	0.110
				R.S. 1420	Private	Agri	0.680
				R.S. 1425	Private	Agri	0.120
				R.S. 1426	Private	Agri	0.560
				R.S. 1427	Private	Agri	0.950
				R.S. 1428	Private	Agri	0.005
				R.S. 1429	Private	Agri	0.540
				R.S. 1529	Private	Agri	1.360
				R.S. 1530	Private	Agri	0.340
				R.S. 1548	Private	Agri	1.040
				R.S. 1551	Private	Agri	0.690
				R.S. 1555	Private	Non-Agri	0.070
				R.S. 1654	Private	Agri	0.430
				R.S. 1753	Private	Agri	0.100
				R.S. 1754	Private	Agri	0.090
				R.S. 1755	Private	Agri	0.090
				R.S. 1757	Private	Agri	0.150
				R.S. 1758	Private	Agri	0.160
				R.S. 1215	Private	Agri	0.015
				R.S. 1226	Private	Agri	1.000
				R.S. 1240	Private	Agri	0.210
				R.S. 1241	Private	Agri	1.270
				R.S. 1242	Private	Agri	0.015
				R.S. 1244	Private	Agri	0.300
				R.S. 1245	Private	Agri	0.020
				R.S. 1246	Private	Agri	0.490
				R.S. 1247	Private	Agri	0.400
				R.S. 1248	Private	Agri	0.160
				R.S. 1249	Private	Agri	0.670
				R.S. 1250	Private	Agri	1.450
				R.S. 1251	Private	Agri	0.600
				R.S. 1252	Private	Agri	0.005
				R.S. 1327	GoWB	Non-Agri	0.190
				R.S. 1328	Private	Agri	0.130
				R.S. 1329	Private	Agri	0.170
				R.S. 1330	Private	Agri	0.060
				R.S. 1331	Private	Agri	0.050
				R.S. 1332	Private	Agri	1.660
				R.S. 1364	Private	Agri	0.050
				R.S. 1218	Private	Non-Agri	0.130
				R.S. 1219	Private	Non-Agri	0.190

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 1220	Private	Non-Agri	0.740
				R.S. 1221	Private	Non-Agri	0.130
				R.S. 1222	Private	Agri	1.580
				R.S. 1223	Private	Agri	0.080
				R.S. 1225	Private	Agri	0.590
				R.S. 1231	Private	Non-Agri	0.110
			(13) Madhupur (J. L. No. 109)	L.R. 233	Private	Agri	0.800
				L.R. 234	Private	Agri	0.960
				L.R. 239	Private	Agri	0.010
				L.R. 241	Private	Agri	0.010
				L.R. 242	Private	Agri	0.290
				L.R. 243	Private	Agri	0.660
				L.R. 250	Private	Agri	0.050
				L.R. 422	Private	Agri	1.340
				L.R. 423	Private	Agri	0.060
				L.R. 424	Private	Agri	0.140
				L.R. 425	Private	Agri	0.510
				L.R. 480	Private	Agri	0.070
				L.R. 555	Private	Agri	1.360
				L.R. 35	GoWB	Non-Agri	0.120
				L.R. 147	Private	Agri	0.470
				L.R. 148	Private	Agri	0.590
				L.R. 149	Private	Agri	0.600
				L.R. 150	Private	Agri	0.060
				L.R. 151	Private	Agri	0.100
				L.R. 156	Private	Agri	0.540
				L.R. 244	Private	Agri	0.260
				L.R. 245	Private	Agri	0.920
				L.R. 246	Private	Agri	0.520
				L.R. 247	Private	Agri	0.600
				L.R. 248	Private	Agri	0.600
				L.R. 260	Private	Agri	0.060
				L.R. 263	Private	Agri	1.140
				L.R. 264	Private	Agri	0.410
				L.R. 492	Private	Agri	0.570
				L.R. 493	Private	Agri	0.350
				L.R. 539	Private	Agri	0.020
				L.R. 7	Private	Agri	0.420
				L.R. 12	Private	Agri	0.780
				L.R. 13	Private	Agri	1.970
				L.R. 15	Private	Agri	0.100
				L.R. 16	Private	Agri	1.500
				L.R. 121	Private	Agri	1.100
				L.R. 122	Private	Agri	0.520
				L.R. 124	Private	Agri	0.080
				L.R. 137	Private	Agri	0.720

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 139	Private	Agri	0.300
				L.R. 140	Private	Agri	1.240
				L.R. 142	Private	Agri	0.055
				L.R. 143	Private	Agri	0.010
				L.R. 144	Private	Agri	0.200
				L.R. 491	Private	Non-Agri	0.125
				L.R. 2	Private	Agri	0.160
				L.R. 5	Private	Non-Agri	0.780
				L.R. 6	Private	Non-Agri	0.930
				L.R. 473	GoWB	Non-Agri	0.070
			(14) Ekar (J. L. No. 110)	L.R. 315	Private	Non-Agri	0.010
				L.R. 317	Private	Non-Agri	0.003
				L.R. 319	GoWB	Non-Agri	0.100
				L.R. 320	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 321	Private	Agri	0.015
				L.R. 322	Private	Agri	0.005
				L.R. 324	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 326	Private	Agri	0.050
				L.R. 327	Private	Agri	0.120
				L.R. 328	Private	Non-Agri	0.140
				L.R. 331	Private	Agri	0.240
				L.R. 332	Private	Agri	0.080
				L.R. 333	Private	Agri	0.280
				L.R. 334	Private	Agri	0.240
				L.R. 335	Private	Agri	0.270
				L.R. 336	Private	Agri	0.080
				L.R. 337	Private	Agri	0.150
				L.R. 338	Private	Agri	0.400
				L.R. 339	Private	Non-Agri	0.420
				L.R. 340	Private	Agri	0.530
				L.R. 341	Private	Agri	0.025
				L.R. 343	Private	Agri	0.850
				L.R. 344	Private	Agri	0.050
				L.R. 345	Private	Agri	0.920
				L.R. 346	Private	Agri	0.500
				L.R. 347	Private	Agri	0.090
				L.R. 348	Private	Agri	0.010
				L.R. 356	Private	Agri	0.320
				L.R. 357	Private	Non-Agri	0.160

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 358	Private	Agri	0.020
				L.R. 360	Private	Agri	0.003
				L.R. 645	Private	Agri	0.190
				L.R. 646	Private	Agri	0.300
				L.R. 647	Private	Agri	0.440
			(15) Degaon (J. L. No. 85)	R.S. 1003	Private	Agri	0.150
				R.S. 1004	Private	Agri	0.390
				R.S. 1010	Private	Agri	0.350
				R.S. 1011	Private	Agri	0.010
				R.S. 1012	Private	Agri	0.530
				R.S. 1013	Private	Agri	0.150
				R.S. 1031	Private	Agri	0.015
				R.S. 1032	Private	Agri	0.250
				R.S. 1033	Private	Agri	0.300
				R.S. 1034	Private	Agri	0.020
				R.S. 1035	Private	Agri	0.150
				R.S. 1036	Private	Agri	0.120
				R.S. 1040	Private	Agri	0.080
				R.S. 1042	Private	Agri	0.140
				R.S. 1043	Private	Agri	0.310
				R.S. 1044	Private	Agri	0.050
				R.S. 1045	Private	Agri	0.060
				R.S. 1049	Private	Agri	0.025
				R.S. 1050	Private	Non-Agri	0.090
				R.S. 1051	Private	Non-Agri	0.130
				R.S. 1052	Private	Non-Agri	0.020
				R.S. 1053	Private	Non-Agri	0.100
				R.S. 1054	Private	Agri	0.100
				R.S. 1056	Private	Non-Agri	0.050
				R.S. 1058	Private	Agri	0.100
				R.S. 1059	Private	Non-Agri	0.330
				R.S. 1074	Private	Agri	0.060
				R.S. 1197	Private	Agri	0.170
				R.S. 1198	Private	Agri	0.050
				R.S. 1199	Private	Agri	0.030
				R.S. 1200	Private	Non-Agri	0.070
			(16) Barai (J. L. No. 86)	R.S. 139	Private	Non-Agri	0.010
				R.S. 248	Private	Agri	0.140
				R.S. 249	Private	Agri	0.520
				R.S. 250	GoWB	Non-Agri	0.280
				R.S. 251	Private	Agri	0.220



1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 252	Private	Agri	0.100
				R.S. 253	Private	Agri	0.180
				R.S. 254	Private	Agri	0.200
				R.S. 255	Private	Agri	1.800
				R.S. 273	Private	Agri	0.500
				R.S. 274	Private	Agri	0.270
				R.S. 275	Private	Non-Agri	0.220
				R.S. 276	Private	Agri	0.070
				R.S. 277	Private	Agri	0.200
				R.S. 278	Private	Agri	0.220
				R.S. 282	Private	Non-Agri	0.050
				R.S. 283	Private	Agri	0.085
				R.S. 284	Private	Agri	0.020
				R.S. 287	Private	Agri	0.065
				R.S. 288	Private	Non-Agri	0.070
				R.S. 289	Private	Agri	0.630
				R.S. 290	Private	Agri	0.190
				R.S. 291	Private	Agri	0.290
				R.S. 292	Private	Agri	0.080
				R.S. 293	Private	Agri	0.015
				R.S. 294	Private	Agri	0.120
				R.S. 297	Private	Non-Agri	0.010
				R.S. 298	Private	Agri	0.050
				R.S. 299	Private	Agri	0.040
				R.S. 301	Private	Non-Agri	0.030
				R.S. 317	Private	Agri	0.070
				R.S. 318	Private	Agri	0.310
				R.S. 336	Private	Agri	0.160
				R.S. 337	GoWB	Agri	0.180
				R.S. 339	Private	Non-Agri	0.080
				R.S. 350	Private	Agri	0.040
				R.S. 357	Private	Agri	0.090
				R.S. 358	Private	Agri	0.150
				R.S. 360	Private	Agri	0.090
				R.S. 368	Private	Agri	0.040
				R.S. 369	Private	Agri	0.230
				R.S. 372	Private	Agri	0.080
				R.S. 1	Private	Agri	1.500
				R.S. 4	Private	Agri	0.960
				R.S. 6	Private	Agri	0.780
				R.S. 7	Private	Non-Agri	0.040
				R.S. 8	GoWB	Agri	0.025
				R.S. 9	Private	Agri	0.260
				R.S. 10	Private	Agri	0.060

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 14	Private	Agri	0.680
				R.S. 15	Private	Agri	1.350
				R.S. 16	GoWB	Non-Agri	2.500
				R.S. 18	Private	Agri	0.500
				R.S. 19	Private	Agri	0.260
				R.S. 21	Private	Non-Agri	0.010
				R.S. 25	Private	Agri	0.005
				R.S. 26	Private	Agri	0.200
				R.S. 27	Private	Agri	0.040
				R.S. 29	Private	Agri	0.140
				R.S. 30	Private	Agri	0.250
				R.S. 246	Private	Agri	0.035
				R.S. 247	Private	Non-Agri	0.050
				R.S. 257	Private	Non-Agri	0.280
			(17) Sitgram (J. L. No. 71)	R.S. 560	Private	Agri	0.570
				R.S. 561	Private	Agri	0.430
				R.S. 562	Private	Agri	0.350
				R.S. 563	Private	Agri	0.280
				R.S. 704	Private	Agri	0.055
				R.S. 705	Private	Agri	0.070
				R.S. 706	Private	Agri	0.090
				R.S. 707	Private	Agri	0.270
				R.S. 708	Private	Agri	0.400
				R.S. 725	Private	Agri	0.600
				R.S. 726	Private	Non-Agri	0.170
				R.S. 727	Private	Non-Agri	0.003
				R.S. 732	Private	Agri	0.040
				R.S. 733	Private	Agri	1.160
				R.S. 740	Private	Agri	0.100
				R.S. 762	Private	Agri	0.090
				R.S. 765	Private	Agri	0.003
				R.S. 2064	Private	Agri	0.070
				R.S. 501	Private	Agri	0.250
				R.S. 504	Private	Agri	0.540
				R.S. 506	Private	Agri	0.980
				R.S. 519	Private	Non-Agri	0.030
				R.S. 551	Private	Non-Agri	0.550
				R.S. 552	Private	Non-Agri	0.020
				R.S. 553	GoWB	Non-Agri	0.090
				R.S. 554	Private	Agri	0.500

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 558	Private	Agri	0.120
				R.S. 559	Private	Agri	1.110
				R.S. 599	GoWB	Non-Agri	0.030
				R.S. 741	Private	Agri	0.140
				R.S. 742	Private	Agri	0.200
				R.S. 743	Private	Agri	0.220
				R.S. 753	GoWB	Agri	0.150
				R.S. 768	Private	Agri	0.120
				R.S. 769	Private	Agri	0.180
				R.S. 770	Private	Agri	0.080
				R.S. 771	Private	Agri	0.440
				R.S. 772	Private	Agri	0.660
				R.S. 773	Private	Agri	0.220
				R.S. 777	Private	Non-Agri	0.020
			(18) Dwipnagar (J. L. No. 87)	R.S. 1333	Private	Agri	0.020
				R.S. 1334	Private	Non-Agri	0.025
				R.S. 1335	Private	Agri	0.370
				R.S. 1337	Private	Agri	0.110
				R.S. 1341	Private	Agri	0.070
				R.S. 1343	Private	Agri	0.080
				R.S. 1344	Private	Agri	0.140
				R.S. 1355	Private	Agri	0.110
				R.S. 1357	Private	Non-Agri	0.020
				R.S. 1084	Private	Non-Agri	0.010
				R.S. 1309	Private	Agri	0.130
				R.S. 1312	Private	Agri	0.070
				R.S. 1316	Private	Agri	0.240
				R.S. 1317	Private	Agri	0.140
				R.S. 1321	Private	Agri	0.080
				R.S. 1009	Private	Agri	0.120
			(19) Krishnamuri (J. L. No. 69)	L.R. 652	Private	Agri	0.250
				L.R. 667	Private	Agri	0.610
				L.R. 668	Private	Agri	0.410
				L.R. 669	Private	Agri	0.180
				L.R. 670	Private	Agri	0.090
				L.R. 671	Private	Agri	0.150
				L.R. 674	Private	Agri	0.190
				L.R. 675	Private	Agri	0.240
				L.R. 679	Private	Agri	0.160
				L.R. 680	Private	Agri	0.070
				L.R. 681	Private	Agri	0.065
				L.R. 682	Private	Agri	0.030
				L.R. 687	Private	Agri	0.240
				L.R. 688	Private	Agri	0.100

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 689	Private	Non-Agri	0.040
				L.R. 691	Private	Agri	0.060
				L.R. 692	Private	Agri	0.035
				L.R. 693	Private	Agri	0.030
				L.R. 694	Private	Agri	0.260
				L.R. 697	Private	Non-Agri	0.190
				L.R. 698	Private	Agri	0.010
				L.R. 699	Private	Non-Agri	0.060
				L.R. 700	Private	Agri	0.110
				L.R. 701	Private	Agri	0.150
				L.R. 702	Private	Agri	0.040
				L.R. 703	Private	Agri	0.180
				L.R. 704	Private	Agri	0.010
				L.R. 705	Private	Agri	0.265
				L.R. 100	Private	Agri	0.080
				L.R. 102	Private	Agri	1.250
				L.R. 105	Private	Agri	0.800
				L.R. 106	Private	Agri	0.570
				L.R. 107	Private	Agri	0.130
				L.R. 121	Private	Agri	0.350
				L.R. 122	Private	Agri	0.340
				L.R. 123	Private	Agri	0.190
				L.R. 124	Private	Agri	0.130
				L.R. 143	Private	Agri	0.450
				L.R. 144	Private	Agri	0.300
				L.R. 146	Private	Agri	0.560
				L.R. 147	Private	Agri	0.250
				L.R. 179	Private	Agri	0.480
				L.R. 180	Private	Agri	0.030
				L.R. 181	Private	Agri	0.420
				L.R. 184	Private	Agri	0.540
				L.R. 185	Private	Agri	0.003
				L.R. 182	Private	Agri	0.160
				L.R. 183	Private	Agri	0.400
				L.R. 218	Private	Non-Agri	0.015
				L.R. 219	Private	Non-Agri	0.150
				L.R. 220	Private	Non-Agri	0.030
				L.R. 243	Private	Non-Agri	0.110
				L.R. 244	Private	Non-Agri	0.025
				L.R. 246	Private	Agri	0.570
				L.R. 247	Private	Agri	0.540
			(20) Paikpara (J. L. No. 68)	L.R. 47	Private	Agri	0.200

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 48	Private	Agri	0.270
				L.R. 49	Private	Agri	0.160
				L.R. 50	Private	Agri	0.520
				L.R. 76	Private	Agri	0.340
				L.R. 77	Private	Agri	0.040
				L.R. 78	Private	Agri	0.050
				L.R. 38	GoWB	Agri	0.270
				L.R. 39	Private	Agri	0.070
				L.R. 40	Private	Agri	0.220
				L.R. 42	Private	Agri	0.615
				L.R. 43	Private	Agri	0.010
				L.R. 44	GoWB	Non-Agri	0.100
			(21) Sitalpur (J. L. No. 62)	L.R. 195	Private	Non-Agri	0.025
				L.R. 259	Private	Agri	0.005
				L.R. 260	Private	Agri	0.100
				L.R. 261	Private	Agri	0.230
				L.R. 262	Private	Agri	0.500
				L.R. 263	Private	Agri	1.470
				L.R. 264	Private	Agri	1.200
				L.R. 265	Private	Agri	0.030
				L.R. 268	Private	Agri	0.100
				L.R. 269	Private	Agri	0.015
				L.R. 319	Private	Agri	0.220
				L.R. 320	Private	Agri	0.550
				L.R. 321	Private	Agri	0.240
				L.R. 322	Private	Agri	1.200
				L.R. 323	Private	Agri	0.340
				L.R. 324	Private	Agri	0.025
				L.R. 219	GoWB	Agri	0.450
				L.R. 220	Private	Agri	0.330
				L.R. 222	Private	Agri	0.260
				L.R. 223	Private	Non-Agri	0.480
				L.R. 245	Private	Agri	0.330
				L.R. 246	Private	Agri	0.090
				L.R. 247	Private	Agri	0.640
			(22) Makdampur (J. L. No. 61)	R.S. 716	GoWB	Agri	0.170
				R.S. 737	Private	Agri	0.320
				R.S. 738	Private	Agri	0.720
				R.S. 741	Private	Agri	0.900
				R.S. 742	Private	Agri	0.160
				R.S. 762	GoWB	Non-Agri	0.220
				R.S. 763	/GoWB/ Private	Agri	1.100
				R.S. 764	Private	Agri	0.780
				R.S. 765	Private	Agri	2.250
				R.S. 791	GoWB	Agri	0.060
		2. Karandighi	(1) Bilaspur (J. L. No. 215)	L.R. 196	Private	Agri	0.025
				L.R. 199	Private	Agri	0.460

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 200	Private	Non-Agri	0.060
				L.R. 201	Private	Agri	0.085
				L.R. 204	Private	Agri	0.060
				L.R. 205	Private	Agri	0.180
				L.R. 206	Private	Agri	0.230
				L.R. 207	Private	Agri	1.000
				L.R. 243	Private	Agri	0.230
				L.R. 244	Private	Agri	1.060
				L.R. 245	Private	Agri	0.310
				L.R. 247	Private	Agri	0.240
				L.R. 248	Private	Agri	0.720
				L.R. 249	Private	Agri	0.270
				L.R. 250	Private	Agri	1.440
				L.R. 251	Private	Agri	1.110
				L.R. 252	Private	Agri	0.015
				L.R. 44	GoWB	Non-Agri	0.030
				L.R. 52	Private	Non-Agri	0.120
				L.R. 61	Private	Agri	0.190
				L.R. 62	Private	Agri	0.080
				L.R. 66	Private	Agri	0.120
				L.R. 67	Private	Agri	0.070
				L.R. 68	Private	Agri	0.010
				L.R. 69	Private	Non-Agri	0.010
				L.R. 70	Private	Non-Agri	0.030
				L.R. 71	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 72	Private	Non-Agri	0.085
				L.R. 74	Private	Non-Agri	0.050
				L.R. 75	Private	Agri	0.040
				L.R. 77	Private	Agri	0.025
				L.R. 78	Private	Agri	0.025
				L.R. 85	Private	Agri	0.045
				L.R. 86	Private	Non-Agri	0.045
				L.R. 87	GoWB	Non-Agri	0.020
				L.R. 88	Private	Agri	0.010
				L.R. 209	Private	Agri	0.200
				L.R. 210	Private	Agri	0.360
				L.R. 211	Private	Agri	0.260
				L.R. 212	Private	Agri	1.180
				L.R. 213	Private	Agri	0.100
				L.R. 214	Private	Agri	0.120
				L.R. 215	Private	Non-Agri	0.110
				L.R. 216	Private	Non-Agri	0.150
				L.R. 217	Private	Agri	0.150
				L.R. 218	Private	Non-Agri	0.040
				L.R. 219	Private	Non-Agri	0.160
				L.R. 221	Private	Non-Agri	0.005
				L.R. 222	Private	Agri	0.070
				L.R. 307	GoWB	Non-Agri	0.060
				L.R. 309	Private	Non-Agri	0.175
				L.R. 310	Private	Agri	0.450
				L.R. 328	Private	Agri	0.020

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 329	Private	Agri	0.120
				L.R. 331	Private	Agri	0.130
				L.R. 332	Private	Agri	0.040
				L.R. 333	Private	Agri	0.140
				L.R. 334	Private	Non-Agri	0.030
				L.R. 335	Private	Non-Agri	0.045
				L.R. 336	Private	Agri	0.060
				L.R. 337	Private	Non-Agri	0.015
				L.R. 338	Private	Agri	0.080
				L.R. 339	GoWB	Non-Agri	0.030
			(2) Ballia (J. L. No. 214)	L.R. 13	Private	Agri	0.120
				L.R. 14	Private	Agri	0.200
				L.R. 15	Private	Agri	0.090
				L.R. 16	Private	Agri	0.250
				L.R. 17	Private	Non-Agri	0.250
				L.R. 18	Private	Agri	0.140
				L.R. 19	Private	Agri	0.540
				L.R. 79	Private	Agri	0.280
				L.R. 119	Private	Agri	0.060
				L.R. 120	Private	Agri	0.100
				L.R. 121	Private	Agri	0.080
				L.R. 125	Private	Agri	0.080
				L.R. 126	Private	Agri	0.130
				L.R. 127	Private	Agri	0.070
				L.R. 129	Private	Agri	0.200
				L.R. 130	Private	Agri	0.030
				L.R. 131	Private	Agri	0.010
				L.R. 219	Private	Agri	0.015
				L.R. 220	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 221	Private	Non-Agri	0.050
				L.R. 222	Private	Non-Agri	0.010
				L.R. 223	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 224	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 225	Private	Agri	0.020
				L.R. 227	Private	Agri	0.105
				L.R. 228	Private	Agri	0.280
				L.R. 231	Private	Non-Agri	0.040
				L.R. 232	Private	Non-Agri	0.005
				L.R. 233	Private	Agri	0.075
				L.R. 234	Private	Non-Agri	0.075
				L.R. 236	Private	Agri	0.005
				L.R. 237	Private	Non-Agri	0.070
				L.R. 238	Private	Agri	0.050
				L.R. 239	Private	Agri	0.040
				L.R. 240	Private	Agri	0.040
				L.R. 241	Private	Agri	0.105
				L.R. 242	Private	Agri	0.100
				L.R. 243	Private	Non-Agri	0.075
				L.R. 246	Private	Non-Agri	0.050
				L.R. 250	Private	Agri	0.020

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 251	Private	Agri	0.050
				L.R. 256	Private	Agri	0.060
				L.R. 257	Private	Agri	0.060
				L.R. 260	Private	Agri	0.040
				L.R. 261	Private	Agri	0.025
				L.R. 273	Private	Agri	0.005
				L.R. 274	Private	Agri	0.020
				L.R. 276	Private	Agri	0.150
				L.R. 277	Private	Non-Agri	0.230
				L.R. 278	Private	Agri	0.170
				L.R. 279	Private	Agri	0.050
				L.R. 280	Private	Agri	0.100
				L.R. 281	Private	Agri	0.260
				L.R. 515	GoWB	Non-Agri	0.090
			(3) Ibrahimpur (J. L. No. 212)	R.S. 47	Private	Agri	0.015
				R.S. 48	Private	Agri	0.070
				R.S. 49	Private	Agri	0.075
				R.S. 50	Private	Agri	0.045
				R.S. 51	Private	Agri	0.030
				R.S. 52	Private	Agri	0.025
				R.S. 56	Private	Agri	0.350
				R.S. 58	Private	Agri	0.095
				R.S. 59	Private	Agri	0.020
				R.S. 88	Private	Agri	0.080
				R.S. 89	Private	Agri	0.080
				R.S. 90	Private	Agri	0.495
				R.S. 91	Private	Agri	0.145
				R.S. 92	Private	Agri	0.065
				R.S. 93	GoWB	Agri	0.150
				R.S. 104	Private	Agri	0.040
				R.S. 105	Private	Agri	0.080
				R.S. 106	Private	Agri	0.160
				R.S. 107	Private	Agri	0.050
				R.S. 108	Private	Agri	0.460
				R.S. 115	Private	Agri	0.640
				R.S. 119	Private	Agri	0.310
				R.S. 120	Private	Agri	0.080
				R.S. 128	Private	Agri	0.015
				R.S. 129	Private	Agri	0.130
			(4) Nakol (J. L. No. 211)	L.R. 167	Private	Agri	0.120
				L.R. 168	Private	Agri	0.060
				L.R. 169	Private	Agri	0.130
				L.R. 177	Private	Agri	0.005
				L.R. 180	GoWB	Non-Agri	0.060
				L.R. 181	Private	Agri	0.010
				L.R. 184	Private	Agri	0.200
				L.R. 188	Private	Agri	0.590
				L.R. 193	Private	Agri	0.130
				L.R. 194	Private	Agri	0.020
				L.R. 196	Private	Agri	0.120



1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 197	Private	Agri	0.060
				L.R. 198	Private	Agri	0.120
				L.R. 199	Private	Agri	0.260
				L.R. 200	Private	Agri	0.090
				L.R. 201	GoWB	Non-Agri	0.040
				L.R. 205	Private	Agri	0.025
				L.R. 208	Private	Agri	0.230
				L.R. 209	Private	Non-Agri	0.080
				L.R. 210	Private	Agri	0.015
				L.R. 211	Private	Agri	0.210
				L.R. 212	Private	Agri	0.740
				L.R. 214	Private	Agri	0.160
				L.R. 215	Private	Agri	0.160
				L.R. 224	Private	Agri	0.030
				L.R. 226	Private	Agri	0.060
				L.R. 227	Private	Agri	0.025
				L.R. 228	Private	Agri	0.025
				L.R. 229	Private	Agri	0.040
				L.R. 230	Private	Agri	0.050
				L.R. 231	Private	Agri	0.030
				L.R. 1510	Private	Agri	0.310
				L.R. 1511	Private	Agri	0.330
				L.R. 1512	Private	Agri	0.320
				L.R. 1513	Private	Agri	0.140
				L.R. 1740	Private	Agri	0.100
				L.R. 1741	Private	Agri	0.130
				L.R. 1742	Private	Agri	0.030
				L.R. 1743	Private	Agri	0.015
				L.R. 1748	Private	Agri	0.480
				L.R. 1749	Private	Agri	0.130
				L.R. 1750	Private	Agri	1.020
				L.R. 1751	Private	Agri	0.020
				L.R. 1755	Private	Agri	0.160
				L.R. 1763	Private	Agri	0.130
				L.R. 1764	GoWB	Agri	0.015
				L.R. 1769	Private	Agri	0.140
				L.R. 1791	Private	Agri	0.150
				L.R. 1792	Private	Agri	0.090
				L.R. 1836	Private	Agri	0.060
				L.R. 1837	Private	Agri	0.250
				L.R. 1838	Private	Agri	0.025
				L.R. 1843	GoWB	Non-Agri	0.060
			(S) Altapir (J. L. No. 283)	R.S. 344	Private	Agri	0.085
				R.S. 346	Private	Agri	0.025
				R.S. 347	Private	Agri	0.170
				R.S. 357	Private	Agri	0.025
				R.S. 361	Private	Agri	0.040
				R.S. 362	Private	Agri	0.040
				R.S. 367	Private	Non-Agri	0.090
				R.S. 368	Private	Non-Agri	0.080

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 372	Private	Non-Agri	0.040
				R.S. 457	Private	Agri	0.015
				R.S. 458	Private	Non-Agri	0.020
				R.S. 459	GoWB	Agri	0.015
				R.S. 463	GoWB	Non-Agri	0.040
				R.S. 465	Private	Agri	0.240
				R.S. 472	Private	Non-Agri	0.235
				R.S. 473	Private	Non-Agri	0.355
				R.S. 474	Private	Agri	0.010
				R.S. 477	Private	Agri	0.530
				R.S. 478	Private	Agri	0.070
				R.S. 482	Private	Agri	0.140
				R.S. 1010	Private	Agri	0.025
				R.S. 1011	Private	Agri	0.030
				R.S. 1012	Private	Agri	0.060
				R.S. 1013	Private	Agri	0.550
				R.S. 1014	Private	Agri	0.003
				R.S. 1016	Private	Non-Agri	0.160
				R.S. 1017	GoWB	Non-Agri	0.310
				R.S. 1018	Private	Agri	0.005
				R.S. 1020	Private	Agri	0.025
				R.S. 1021	Private	Agri	0.050
				R.S. 1028	Private	Agri	0.050
				R.S. 1029	Private	Agri	0.035
				R.S. 1030	Private	Agri	0.055
				R.S. 1031	Private	Agri	0.270
				R.S. 1032	Private	Agri	0.075
				R.S. 1033	Private	Agri	0.135
				R.S. 1034	Private	Agri	0.200
				R.S. 1035	Private	Agri	0.330
				R.S. 1036	Private	Agri	0.090
				R.S. 1037	Private	Agri	0.180
				R.S. 1043	GoWB	Non-Agri	0.130
				R.S. 1116	Private	Agri	0.120
				R.S. 601	Private	Agri	0.170
				R.S. 602	Private	Non-Agri	0.128
				R.S. 603	Private	Agri	0.025
				R.S. 604	Private	Agri	0.095
				R.S. 605	Private	Agri	0.075
				R.S. 606	Private	Non-Agri	0.095
				R.S. 607	Private	Agri	0.165
				R.S. 608	Private	Agri	0.085
				R.S. 622	Private	Non-Agri	0.195
				R.S. 624	Private	Agri	0.500
				R.S. 626	Private	Agri	0.280
				R.S. 627	Private	Agri	0.505
				R.S. 628	Private	Agri	0.300
				R.S. 630	GoWB	Non-Agri	0.055
				R.S. 5	Private	Agri	0.010
				R.S. 6	Private	Agri	0.020
				R.S. 7	Private	Agri	0.015

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 10	Private	Agri	0.015
				R.S. 11	Private	Agri	0.090
				R.S. 26	Private	Non-Agri	0.010
				R.S. 28	Private	Non-Agri	0.010
				R.S. 29	Private	Agri	0.085
				R.S. 30	Private	Non-Agri	0.030
				R.S. 32	Private	Agri	0.025
				R.S. 34	Private	Agri	0.015
				R.S. 35	Private	Agri	0.010
				R.S. 36	Private	Agri	0.075
				R.S. 86	Private	Agri	0.010
				R.S. 87	Private	Agri	0.005
				R.S. 88	Private	Agri	0.030
				R.S. 95	Private	Agri	0.030
				R.S. 96	Private	Agri	0.030
				R.S. 97	Govt.	Agri	0.035
				R.S. 455	Private	Agri	0.040
				R.S. 456	Private	Non-Agri	0.070
				R.S. 484	Private	Agri	0.520
				R.S. 485	Private	Non-Agri	0.025
				R.S. 490	Private	Agri	0.080
				R.S. 491	Private	Agri	1.275
				R.S. 502	Private	Agri	0.490
				R.S. 503	Private	Agri	0.140
				R.S. 504	Private	Agri	0.015
				R.S. 507	Private	Agri	0.005
				R.S. 508	Private	Agri	0.240
				R.S. 509	Private	Non-Agri	0.735
				R.S. 510	Private	Agri	0.035
				R.S. 511	Private	Agri	0.040
				R.S. 512	Private	Non-Agri	0.010
				R.S. 540	Private	Agri	0.020
				R.S. 541	Private	Non-Agri	0.005
				R.S. 542	Private	Agri	0.235
				R.S. 543	Private	Agri	0.080
				R.S. 544	Private	Agri	0.080
				R.S. 545	Private	Agri	0.080
				R.S. 546	Private	Agri	0.080
				R.S. 547	Private	Non-Agri	0.095
				R.S. 548	Private	Agri	0.075
				R.S. 549	Private	Non-Agri	0.150
				R.S. 550	Private	Agri	0.030
				R.S. 551	Private	Non-Agri	0.090
				R.S. 552	Private	Agri	0.070
				R.S. 553	Private	Agri	0.030
				R.S. 554	Govt.	Non-Agri	0.035
				R.S. 578	Private	Agri	0.275
				R.S. 579	Private	Agri	0.180
				R.S. 581	Private	Agri	0.040
				R.S. 582	Private	Agri	0.060
				R.S. 583	Private	Agri	0.130

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 584	Private	Agri	0.070
				R.S. 596	Private	Agri	0.190
				R.S. 597	Private	Non-Agri	0.100
				R.S. 598	Private	Non-Agri	0.040
				R.S. 599	Private	Agri	0.020
				R.S. 600	Private	Non-Agri	0.220
				R.S. 1117	Private	Non-Agri	0.040
			(6) Bihnagar (J. L. No. 200)	L.R. 882	Private	Agri	0.050
				L.R. 883	Private	Agri	0.045
				L.R. 884	Private	Agri	0.100
				L.R. 895	Private	Agri	0.060
				L.R. 896	Private	Agri	0.035
				L.R. 897	Private	Agri	0.090
				L.R. 955	GoWB	Non-Agri	0.010
				L.R. 958	Private	Agri	0.060
				L.R. 959	Private	Agri	0.020
				L.R. 964	Private	Agri	0.045
				L.R. 965	Private	Agri	0.070
				L.R. 969	Private	Agri	0.125
				L.R. 970	Private	Agri	0.050
				L.R. 992	Private	Agri	0.075
				L.R. 996	Private	Agri	0.015
				L.R. 511	Private	Non-Agri	0.120
				L.R. 513	Private	Agri	0.030
				L.R. 514	Private	Agri	0.080
				L.R. 517	Private	Non-Agri	0.050
				L.R. 518	Private	Agri	0.045
				L.R. 564	Private	Non-Agri	0.210
				L.R. 565	GoWB	Agri	0.015
				L.R. 566	GoWB	Non-Agri	0.005
				L.R. 869	Private	Non-Agri	0.005
				L.R. 870	Private	Agri	0.200
				L.R. 999	Private	Agri	0.180
				L.R. 1000	Private	Non-Agri	0.025
				L.R. 1001	Private	Non-Agri	0.015
				L.R. 347	Private	Agri	0.060
				L.R. 348	Private	Agri	0.010
				L.R. 349	Private	Agri	0.085
				L.R. 478	Private	Agri	0.025
				L.R. 479	Private	Agri	0.060
				L.R. 480	Private	Agri	0.190
				L.R. 490	Private	Agri	0.030
				L.R. 492	GoWB	Agri	0.060
				L.R. 506	Private	Agri	0.515
			(7) Machhail (J. L. No. 202)	L.R. 136	Private	Agri	0.760
				L.R. 137	Private	Agri	0.240
				L.R. 139	Private	Non-Agri	0.160
				L.R. 140	Private	Agri	0.140
				L.R. 141	Private	Agri	0.560
				L.R. 149	Private	Agri	0.080

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 150	Private	Agri	0.680
				L.R. 151	Private	Agri	0.440
				L.R. 3	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 4	Private	Agri	0.275
				L.R. 5	GoWB	Agri	0.040
				L.R. 9	Private	Agri	0.120
				L.R. 10	Private	Agri	0.150
				L.R. 11	Private	Agri	0.600
				L.R. 12	Private	Non-Agri	0.040
				L.R. 13	Private	Agri	0.120
				L.R. 14	Private	Agri	0.095
				L.R. 15	Private	Agri	0.010
				L.R. 60	GoWB	Non-Agri	0.110
				L.R. 114	Private	Agri	0.005
				L.R. 115	Private	Agri	0.780
				L.R. 116	Private	Agri	0.075
				L.R. 117	Private	Agri	0.220
				L.R. 118	Private	Agri	0.440
			(8) Kuhator (J.L.No. 201)	L.R. 223	Private	Agri	0.660
				L.R. 224	GoWB	Non-Agri	0.030
				L.R. 227	Private	Agri	0.560
				L.R. 228	Private	Agri	0.070
				L.R. 229	Private	Agri	0.210
				L.R. 230	Private	Agri	0.330
				L.R. 235	Private	Agri	0.090
				L.R. 239	Private	Agri	0.160
				L.R. 240	Private	Agri	0.570
				L.R. 241	Private	Agri	0.060
				L.R. 242	Private	Agri	0.160
				L.R. 243	Private	Agri	0.015
				L.R. 244	Private	Agri	0.190
				L.R. 251	Private	Agri	0.015
				L.R. 252	Private	Agri	0.465
				L.R. 253	Private	Agri	0.210
				L.R. 254	Private	Agri	0.080
				L.R. 256	Private	Agri	0.090
				L.R. 258	GoWB	Agri	0.020
				L.R. 259	Private	Agri	0.460
				L.R. 260	Private	Agri	0.190
				L.R. 265	Private	Agri	1.750
				L.R. 266	Private	Agri	0.455
				L.R. 268	GoWB	Non-Agri	0.350
				L.R. 269	Private	Agri	0.120
			(9) Sadipur (J. L. No. 188)	L.R. 989	Private	Agri	0.020
				L.R. 990	Private	Agri	0.120
				L.R. 991	Private	Agri	0.100
				L.R. 994	Private	Agri	0.060
				L.R. 995	Private	Agri	0.120
				L.R. 996	Private	Agri	0.020
				L.R. 1017	Private	Agri	0.140

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 1022	Private	Agri	0.190
			(10) Jujharpur (J. L. No. 183)	R.S. 2002	Private	Agri	0.020
				R.S. 2005	Private	Agri	0.055
				R.S. 2006	Private	Agri	0.040
				R.S. 2018	Private	Agri	0.005
				R.S. 2019	Private	Agri	0.060
				R.S. 2025	Private	Agri	0.075
				R.S. 2026	Private	Agri	0.095
				R.S. 2027	Private	Agri	0.180
				R.S. 2029	Private	Agri	0.050
				R.S. 2030	Private	Agri	0.130
				R.S. 2031	Private	Agri	0.195
				R.S. 2033	Private	Agri	0.030
				R.S. 2038	Private	Agri	0.215
				R.S. 2039	GoWB	Non-Agri	0.195
				R.S. 2296	Private	Agri	0.440
				R.S. 2297	Private	Agri	0.140
				R.S. 2303	Private	Non-Agri	0.020
				R.S. 2304	Private	Non-Agri	0.005
				R.S. 2305	Private	Agri	0.120
				R.S. 2306	Private	Non-Agri	0.015
				R.S. 2307	Private	Non-Agri	0.005
				R.S. 2308	Private	Agri	0.380
				R.S. 2312	Private	Agri	0.005
				R.S. 2314	GoWB	Agri	0.015
				R.S. 2315	Private	Non-Agri	0.040
				R.S. 2316	Private	Agri	0.420
				R.S. 2317	Private	Agri	0.210
				R.S. 2350	Private	Non-Agri	0.035
				R.S. 2351	Private	Agri	0.255
				R.S. 2361	Private	Agri	0.040
				R.S. 2362	Private	Agri	0.130
				R.S. 2363	Private	Agri	0.030
				R.S. 2364	Private	Agri	0.135
				R.S. 2365	Private	Agri	0.170
				R.S. 2376	GoWB	Agri	0.080
				R.S. 2377	Private	Agri	0.230
				R.S. 2378	Private	Agri	0.130
				R.S. 2386	Private	Agri	0.515
				R.S. 2387	Private	Agri	0.490
				R.S. 2388	Private	Agri	0.350
				R.S. 2389	GoWB	Non-Agri	0.030
				R.S. 1802	Private	Agri	0.960
				R.S. 1803	Private	Agri	0.045
				R.S. 1804	Private	Agri	0.200
				R.S. 1805	Private	Agri	0.060
				R.S. 1806	Private	Agri	0.730
				R.S. 1854	Private	Agri	0.230
				R.S. 1855	Private	Agri	0.080
				R.S. 1856	Private	Agri	0.010

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 1857	Private	Agri	0.650
				R.S. 1858	Private	Agri	0.440
				R.S. 1859	Private	Agri	0.080
				R.S. 1860	Private	Agri	0.015
				R.S. 1861	Private	Agri	0.090
				R.S. 1862	Private	Agri	0.100
				R.S. 1863	GoWB	Agri	0.010
				R.S. 1864	Private	Agri	0.050
				R.S. 1865	Private	Agri	0.200
				R.S. 1866	Private	Non-Agri	0.020
				R.S. 1950	Private	Agri	0.060
				R.S. 1951	GoWB	Non-Agri	0.195
				R.S. 1952	Private	Non-Agri	0.080
				R.S. 1953	Private	Agri	0.760
				R.S. 2044	Private	Agri	0.040
				R.S. 2045	Private	Agri	0.090
				R.S. 2046	GoWB	Non-Agri	0.135
				R.S. 2047	Private	Agri	0.080
				R.S. 2048	GoWB	Agri	0.035
				R.S. 2049	Private	Agri	0.035
				R.S. 2052	GoWB	Agri	0.335
				R.S. 2054	Private	Agri	0.420
				R.S. 2055	Private	Non-Agri	0.050
				R.S. 68	Private	Agri	1.550
				R.S. 1602	Private	Agri	0.030
				R.S. 1604	Private	Agri	0.080
				R.S. 1605	Private	Agri	0.040
				R.S. 1607	Private	Agri	0.710
				R.S. 1608	Private	Agri	0.020
				R.S. 1609	Private	Agri	0.490
				R.S. 1610	GoWB	Agri	0.210
				R.S. 1613	Private	Agri	0.400
				R.S. 1614	Private	Agri	0.035
				R.S. 1615	Private	Agri	0.060
				R.S. 1616	Private	Agri	0.850
				R.S. 1617	Private	Agri	0.045
				R.S. 1630	Private	Agri	0.030
				R.S. 1632	Private	Agri	0.040
				R.S. 1633	Private	Agri	0.560
				R.S. 1756	Private	Agri	0.200
				R.S. 1757	Private	Agri	0.030
				R.S. 1758	Private	Agri	0.380
				R.S. 1759	Private	Agri	0.035
				R.S. 1766	Private	Agri	0.225
				R.S. 1768	Private	Agri	2.020
				R.S. 1770	Private	Agri	0.010
				R.S. 1771	Private	Agri	0.120
				R.S. 1780	Private	Agri	0.580
				R.S. 1781	Private	Agri	0.850
				R.S. 1782	Private	Agri	0.085
				R.S. 1783	Private	Agri	0.055

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 1799	Private	Agri	0.110
				R.S. 7	Private	Agri	0.450
				R.S. 8	Private	Agri	1.380
				R.S. 9	GoWB	Non-Agri	0.050
				R.S. 11	Private	Agri	1.160
				R.S. 13	Private	Agri	0.600
				R.S. 14	Private	Agri	0.670
				R.S. 16	Private	Agri	0.160
				R.S. 17	Private	Agri	0.730
				R.S. 18	Private	Agri	0.280
				R.S. 19	Private	Agri	0.080
				R.S. 51	GoWB	Non-Agri	0.160
				R.S. 54	Private	Agri	0.120
				R.S. 56	Private	Agri	0.005
				R.S. 57	Private	Agri	0.530
				R.S. 58	Private	Agri	0.170
				R.S. 59	Private	Agri	0.450
				R.S. 60	Private	Agri	0.750
				R.S. 68	Private	Agri	0.260
			(11) Bahangaon (J. L. No. 187)	R.S. 227	Private	Agri	0.060
				R.S. 228	Private	Agri	0.680
				R.S. 229	Private	Agri	0.020
				R.S. 230	Private	Agri	0.630
				R.S. 231	Private	Agri	0.310
				R.S. 359	GoWB	Non-Agri	0.240
			(12) Baijuwar (J. L. No. 182)	R.S. 199	GoWB	Non-Agri	0.410
				R.S. 200	Private	Agri	0.630
				R.S. 222	Private	Agri	1.700
				R.S. 231	Private	Agri	0.050
				R.S. 232	Private	Agri	0.025
				R.S. 235	Private	Agri	0.010
				R.S. 237	Private	Agri	0.100
				R.S. 238	Private	Agri	0.005
				R.S. 239	Private	Agri	0.310
				R.S. 240	Private	Agri	0.250
				R.S. 241	Private	Agri	0.060
				R.S. 242	Private	Agri	0.050
				R.S. 243	Private	Agri	0.030
				R.S. 244	Private	Agri	0.230
				R.S. 245	Private	Agri	0.310
				R.S. 246	Private	Agri	0.070
				R.S. 247	Private	Agri	0.140
				R.S. 248	Private	Agri	0.240
				R.S. 249	Private	Agri	0.330
				R.S. 250	Private	Agri	0.060
				R.S. 251	Private	Agri	0.200
			(13) Balchiar (J. L. No. 184)	R.S. 748	Private	Agri	0.015
				R.S. 749	GoWB	Agri	0.630



1	2	3	4	5	6	7	8
			(14) Bhaksala (J. L. No. 180)	R.S. 358	Private	Agri	0.200
				R.S. 363	Private	Agri	0.055
				R.S. 365	Private	Agri	0.080
				R.S. 366	Private	Agri	0.080
				R.S. 387	GoWB	Non-Agri	0.015
				R.S. 400	Private	Agri	0.110
				R.S. 401	Private	Agri	0.030
				R.S. 404	Private	Agri	0.030
				R.S. 406	Private	Agri	0.150
				R.S. 443	Private	Agri	0.680
				R.S. 317	Private	Agri	0.080
				R.S. 337	Private	Agri	0.320
			(15) Sadhanpur (J. L. No. 181)	R.S. 228	Private	Agri	0.450
				R.S. 229	Private	Agri	0.140
				R.S. 232	Private	Agri	0.200
				R.S. 234	Private	Agri	0.270
				R.S. 235	GoWB	Non-Agri	0.085
				R.S. 236	Private	Agri	0.080
				R.S. 240	Private	Agri	0.890
				R.S. 242	Private	Agri	1.380
				R.S. 245	Private	Agri	0.290
				R.S. 244	Private	Agri	0.410
			(16) Tunibhita (J. L. No. 165)	R.S. 85	Private	Agri	0.015
				R.S. 87	Private	Non-Agri	0.060
				R.S. 93	Private	Agri	0.080
				R.S. 94	Private	Agri	0.060
				R.S. 193	Private	Agri	0.180
				R.S. 197	Private	Agri	0.015
				R.S. 199	Private	Agri	0.025
				R.S. 200	Private	Agri	0.280
				R.S. 201	Private	Agri	0.380
				R.S. 202	Private	Agri	0.290
				R.S. 203	Private	Agri	0.250
				R.S. 204	Private	Agri	0.035
				R.S. 209	Private	Agri	0.200
				R.S. 210	Private	Agri	0.310
				R.S. 211	Private	Agri	0.125
				R.S. 212	Private	Agri	0.230
				R.S. 213	Private	Agri	0.140
				R.S. 214	GoWB	Agri	0.070
				R.S. 220	Private	Agri	0.120
				R.S. 393	Private	Agri	0.080
				R.S. 395	Private	Non-Agri	0.070
				R.S. 396	Private	Agri	0.040
				R.S. 397	Private	Agri	0.330
				R.S. 398	Private	Agri	0.280
				R.S. 399	Private	Agri	0.060
				R.S. 400	Private	Agri	0.085
				R.S. 403	Private	Agri	0.160

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 404	Private	Agri	0.180
				R.S. 405	Private	Agri	0.060
				R.S. 406	Private	Agri	0.100
				R.S. 408	Private	Agri	0.005
				R.S. 409	GoWB	Agri	0.035
				R.S. 417	Private	Agri	0.100
				R.S. 423	Private	Agri	0.420
				R.S. 424	Private	Agri	0.045
				R.S. 425	Private	Agri	0.090
				R.S. 429	Private	Agri	0.150
				R.S. 99	Private	Agri	0.590
				R.S. 100	Private	Agri	0.410
				R.S. 101	Private	Agri	0.720
				R.S. 102	Private	Agri	0.135
			(17) Khatrabari (J. L. No. 166)	R.S. 74	GoWB	Agri	0.020
				R.S. 261	Private	Agri	0.005
				R.S. 262	GoWB	Agri	0.320
				R.S. 264	Private	Agri	0.950
				R.S. 266	Private	Agri	0.070
				R.S. 267	Private	Agri	0.010
				R.S. 268	Private	Agri	0.150
				R.S. 270	Private	Agri	0.020
				R.S. 290	Private	Agri	0.020
				R.S. 300	Private	Agri	0.070
				R.S. 301	Private	Agri	0.080
				R.S. 316	Private	Agri	0.120
				R.S. 317	Private	Agri	0.250
				R.S. 319	Private	Agri	0.180
				R.S. 322	GoWB	Agri	0.440
				R.S. 323	Private	Agri	0.110
				R.S. 324	Private	Agri	0.010
				R.S. 327	Private	Agri	0.010
				R.S. 328	Private	Agri	0.100
				R.S. 350	GoWB	Agri	0.050
				R.S. 351	Private	Agri	0.320
				R.S. 352	Private	Agri	0.560
				R.S. 353	Private	Agri	0.070
				R.S. 357	Private	Agri	0.240
				R.S. 358	Private	Agri	0.490
				R.S. 60	Private	Agri	0.045
				R.S. 61	Private	Agri	0.370
				R.S. 62	Private	Agri	0.110
				R.S. 64	Private	Agri	0.410
				R.S. 68	Private	Agri	0.220
				R.S. 99	Private	Agri	0.340
				R.S. 101	Private	Agri	0.130
				R.S. 106	Private	Agri	0.060
				R.S. 204	Private	Agri	0.020
				R.S. 205	Private	Agri	0.030
				R.S. 206	Private	Agri	0.020

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 208	Private	Agri	0.050
				L.R. 1	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 2	Private	Non-Agri	0.070
				L.R. 3	GoWB	Non-Agri	0.450
				L.R. 6	Private	Agri	0.360
				L.R. 41	Private	Agri	0.040
				L.R. 42	Private	Agri	0.150
				L.R. 43	Private	Agri	0.010
				L.R. 44	Private	Agri	0.140
				L.R. 45	Private	Agri	0.300
				L.R. 49	Private	Agri	0.110
				L.R. 53	Private	Agri	0.330
				L.R. 57	Private	Agri	0.100
				L.R. 58	Private	Agri	0.020
			(18) Pachloha (J. L. No. 164)	R.S. 195	Private	Agri	0.130
				R.S. 197	Private	Agri	0.500
				R.S. 198	Private	Agri	0.400
				R.S. 201	Private	Agri	0.035
				R.S. 215	Private	Agri	0.035
				R.S. 216	GoWB	Agri	0.040
				R.S. 22	Private	Agri	0.350
				R.S. 23	Private	Agri	0.420
				R.S. 27	Private	Agri	0.170
				R.S. 28	Private	Agri	0.100
				R.S. 153	Private	Agri	0.440
				R.S. 154	Private	Agri	0.550
				R.S. 169	Private	Agri	0.280
				R.S. 170	Private	Agri	0.020
				R.S. 171	GoWB	Agri	0.070
				R.S. 188	Private	Agri	0.065
				R.S. 193	Private	Agri	0.060
				R.S. 194	Private	Agri	0.030
			(19) Basantagachh (J. L. No. 167)	R.S. 745	Private	Agri	0.100
				R.S. 746	Private	Agri	0.040
				R.S. 747	Private	Agri	0.020
				R.S. 748	Private	Agri	0.310
				R.S. 752	Private	Agri	0.110
			(20) Dalmadah (J. L. No. 163)	L.R. 237	Private	Agri	0.210
				L.R. 224	Private	Agri	0.090
				L.R. 226	Private	Agri	0.060
				L.R. 227	Private	Agri	0.100
				L.R. 231	Private	Agri	0.070
				L.R. 232	Private	Agri	0.040
				L.R. 235	Private	Agri	0.150
				L.R. 236	Private	Agri	0.100
				L.R. 238	Private	Agri	0.330
				L.R. 239	Private	Agri	0.650
				L.R. 240	GoWB	Non-Agri	0.050
				L.R. 241	Private	Agri	0.025

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 242	Private	Agri	0.080
				L.R. 244	Private	Agri	0.100
				L.R. 245	Private	Agri	0.060
				L.R. 247	GoWB	Non-Agri	0.070
			(21) Salampur (J. L. No. 162)	R.S. 107	Private	Agri	0.140
				R.S. 108	GoWB	Agri	0.010
				R.S. 109	Private	Agri	0.140
				R.S. 110	Private	Agri	0.460
				R.S. 136	Private	Agri	0.040
				R.S. 137	Private	Agri	0.260
				R.S. 138	Private	Agri	0.500
				R.S. 139	Private	Agri	0.180
				R.S. 140	Private	Agri	0.045
				R.S. 258	Private	Agri	0.300
				R.S. 259	Private	Agri	0.130
				R.S. 423	Private	Agri	0.015
				R.S. 424	Private	Agri	0.090
				R.S. 425	Private	Agri	0.120
				R.S. 428	GoWB	Agri	0.025
				R.S. 430	Private	Agri	0.300
				R.S. 435	Private	Agri	0.160
				R.S. 454	Private	Agri	0.140
				R.S. 464	Private	Agri	0.025
				R.S. 476	Private	Agri	0.005
				R.S. 479	Private	Agri	0.060
				R.S. 480	Private	Agri	0.020
				R.S. 481	GoWB	Non-Agri	0.030
				R.S. 559	Private	Agri	0.060
				R.S. 561	Private	Agri	0.010
				R.S. 562	Private	Agri	0.080
				R.S. 563	Private	Agri	0.060
				R.S. 567	Private	Agri	0.180
				R.S. 568	Private	Agri	0.040
				R.S. 569	Private	Agri	0.050
				R.S. 570	Private	Agri	0.040
				R.S. 571	Private	Agri	0.060
				R.S. 572	Private	Agri	0.005
				R.S. 574	Private	Agri	0.200
				R.S. 575	Private	Agri	0.110
				R.S. 1	Private	Agri	0.920
				R.S. 4	Private	Agri	0.085
				R.S. 5	Private	Non-Agri	0.100
				R.S. 6	Private	Agri	0.210
				R.S. 7	Private	Agri	1.190
				R.S. 8	Private	Non-Agri	0.850
				R.S. 17	Private	Agri	0.200
				R.S. 18	Private	Agri	0.460
				R.S. 19	Private	Agri	0.475
				R.S. 24	Private	Non-Agri	0.315
				R.S. 28	Private	Agri	0.050

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 29	Private	Agri	0.060
				R.S. 74	Private	Agri	0.230
				R.S. 75	Private	Agri	0.180
				R.S. 76	GoWB	Non-Agri	0.250
				R.S. 77	Private	Agri	0.190
				R.S. 78	Private	Agri	0.015
				R.S. 85	GoWB	Non-Agri	0.100
				R.S. 106	Private	Agri	0.040
				R.S. 333	Private	Agri	0.150
				R.S. 337	Private	Agri	0.060
				R.S. 338	Private	Agri	0.050
				R.S. 339	Private	Agri	0.020
				R.S. 368	GoWB	Non-Agri	0.020
			(22) Dhanpara (J. L. No. 161)	R.S. 547	Private	Agri	0.220
				R.S. 548	Private	Agri	0.070
				R.S. 1	Private	Non-Agri	0.800
				R.S. 4	Private	Agri	0.040
				R.S. 5	GoWB	Agri	0.005
				R.S. 25	Private	Agri	0.040
				R.S. 26	Private	Agri	0.240
				R.S. 27	GoWB	Agri	0.310
				R.S. 28	Private	Agri	0.170
				R.S. 30	Private	Agri	0.025
				R.S. 31	Private	Agri	0.220
				R.S. 32	Private	Agri	0.280
				R.S. 33	Private	Agri	0.190
				R.S. 34	Private	Agri	0.015
				R.S. 35	Private	Agri	1.120
				R.S. 36	Private	Non-Agri	0.360
				R.S. 38	Private	Agri	0.080
				R.S. 39	Private	Agri	0.005
				R.S. 43	Private	Agri	0.020
				R.S. 44	Private	Agri	0.580
				R.S. 45	Private	Agri	0.320
				R.S. 46	Private	Agri	0.500
				R.S. 47	Private	Agri	0.420
				R.S. 48	Private	Agri	0.750
				R.S. 50	Private	Agri	0.020
				R.S. 51	Private	Agri	0.380
				R.S. 52	Private	Agri	0.370
				R.S. 53	Private	Agri	0.020
				R.S. 59	Private	Agri	0.020
				R.S. 88	Private	Agri	0.700
				R.S. 89	Private	Agri	0.220
				R.S. 90	Private	Agri	0.070
				R.S. 112	Private	Agri	0.030
				R.S. 113	GoWB	Non-Agri	0.820
				R.S. 114	Private	Non-Agri	0.015
				L.R. 470	Private	Agri	0.050
				L.R. 471	Private	Agri	0.080

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 472	Private	Agri	0.120
				L.R. 473	Private	Agri	0.390
				L.R. 474	Private	Non-Agri	0.040
				L.R. 475	Private	Agri	0.130
				L.R. 476	Private	Agri	0.550
				L.R. 477	Govt.	Non-Agri	0.080
				L.R. 478	Private	Agri	0.300
				L.R. 479	Private	Agri	0.200
				L.R. 480	Private	Agri	0.160
				L.R. 481	Private	Agri	0.430
				L.R. 484	Private	Agri	0.050
				L.R. 485	Private	Agri	0.130
				L.R. 486	Private	Agri	0.280
				L.R. 487	Private	Agri	0.080
				L.R. 488	Private	Agri	0.020
				L.R. 492	Govt.	Agri	0.640
				L.R. 493	Private	Agri	0.310
				L.R. 494	Private	Agri	0.180
				L.R. 495	Private	Agri	0.220
				L.R. 496	Private	Agri	0.120
				L.R. 497	Private	Agri	0.260
				L.R. 498	Govt.	Agri	0.060
				L.R. 499	Govt.	Agri	0.390
				L.R. 513	Govt.	Non-Agri	0.095
				L.R. 518	Private	Non-Agri	0.040
				L.R. 519	Private	Agri	0.025
				L.R. 521	Private	Agri	0.170
				L.R. 522	Private	Non-Agri	0.100
				L.R. 523	Private	Agri	0.530
				L.R. 548	Private	Agri	0.230
				L.R. 550	Private	Agri	0.120
				L.R. 551	Private	Non-Agri	0.040
				L.R. 552	Private	Agri	0.360
				L.R. 553	Govt.	Non-Agri	0.005
				L.R. 554	Private	Agri	1.100
				L.R. 524/ 1011	Private	Non-Agri	0.015
			(23) Pandepur (J. L. No. 154)	R.S. 375	Private	Agri	0.160
				R.S. 376	Private	Agri	0.090
				R.S. 377	Private	Agri	0.640
				R.S. 378	Private	Agri	0.500
				R.S. 379	Private	Agri	0.390
				R.S. 380	Private	Agri	0.250
				R.S. 384	Private	Agri	1.700
				R.S. 385	Private	Agri	0.070
				R.S. 407	Private	Agri	0.950
				R.S. 408	Private	Agri	0.260
				R.S. 409	Private	Agri	0.210
				R.S. 414	Private	Agri	0.230
				R.S. 416	Private	Agri	0.200

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 417	Private	Non-Agri	0.180
				R.S. 418	Private	Agri	0.360
				R.S. 419	Private	Agri	0.460
				R.S. 426	Private	Agri	0.440
				R.S. 508	GoWB	Non-Agri	0.100
				R.S. 509	Private	Non-Agri	0.090
				R.S. 510	Private	Agri	1.180
				R.S. 511	Private	Agri	0.520
				R.S. 512	Private	Agri	0.320
				R.S. 513	Private	Non-Agri	0.190
				R.S. 159	Private	Agri	0.960
				R.S. 163	Private	Agri	1.100
				R.S. 164	Private	Agri	0.950
				R.S. 165	Private	Agri	0.880
				R.S. 173	Private	Agri	1.160
				R.S. 193	Private	Agri	0.030
				R.S. 197	Private	Agri	0.170
				R.S. 198	Private	Agri	0.270
				R.S. 199	Private	Agri	0.310
				R.S. 200	Private	Agri	0.210
				R.S. 201	Private	Agri	0.480
				R.S. 202	Private	Agri	0.420
				R.S. 203	Private	Agri	0.450
				R.S. 206	Private	Agri	0.150
				R.S. 207	Private	Agri	0.140
				R.S. 210	Private	Agri	0.070
				R.S. 211	Private	Agri	0.150
				R.S. 212	Private	Agri	0.430
				R.S. 213	Private	Agri	0.010
				R.S. 214	Private	Agri	0.420
				R.S. 215	GoWB	Non-Agri	0.010
			(24) Sohar (J. L. No. 153)	R.S. 1123	Private	Agri	0.005
				R.S. 1124	Private	Agri	0.130
				R.S. 1125	Private	Agri	0.530
				R.S. 1277	Private	Agri	0.950
				R.S. 1279	Private	Agri	0.560
				R.S. 1280	Private	Agri	1.100
				R.S. 1285	Private	Agri	2.200
				R.S. 1286	Private	Agri	2.000
				R.S. 1495	Private	Agri	0.140
				R.S. 934	Private	Agri	0.130
				R.S. 936	Private	Agri	0.045
				R.S. 937	Private	Agri	0.500
				R.S. 938	Private	Agri	2.200
				R.S. 943	Private	Agri	0.220
				R.S. 946	Private	Agri	0.840
				R.S. 1059	Private	Agri	0.090
				R.S. 1060	Private	Agri	0.310
				R.S. 1061	Private	Agri	0.290
				R.S. 1062	Private	Agri	0.540

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 1063	Private	Agri	0.460
				R.S. 1065	Private	Non-Agri	0.300
				R.S. 1084	Private	Agri	1.360
				R.S. 1085	Private	Agri	0.730
				R.S. 1086	Private	Agri	0.570
				R.S. 403	Private	Agri	0.200
				R.S. 405	Private	Agri	0.490
				R.S. 406	Private	Agri	0.220
				R.S. 419	Private	Agri	1.250
				R.S. 420	Private	Agri	1.650
				R.S. 421	Private	Agri	0.010
				R.S. 422	Private	Agri	0.210
				R.S. 423	GoWB	Agri	0.410
				R.S. 434	Private	Agri	0.200
				R.S. 439	Private	Agri	0.670
				R.S. 438	Private	Agri	0.210
				R.S. 440	Private	Agri	0.860
				R.S. 441	Private	Agri	0.400
				R.S. 454	Private	Agri	0.220
				R.S. 455	Private	Agri	0.120
				R.S. 456	Private	Agri	0.200
				R.S. 458	Private	Agri	0.960
				R.S. 462	Private	Agri	0.580
				R.S. 932	Private	Agri	0.060
				R.S. 933	Private	Agri	0.750
				R.S. 939	Private	Agri	0.120
				R.S. 49	Private	Agri	0.065
				R.S. 50	Private	Agri	0.670
				R.S. 51	Private	Agri	0.620
				R.S. 55	Private	Agri	0.010
				R.S. 56	Private	Agri	0.040
				R.S. 57	Private	Agri	0.560
				R.S. 58	Private	Agri	0.160
				R.S. 59	Private	Agri	0.360
				R.S. 60	Private	Agri	0.690
				R.S. 61	Private	Agri	0.860
				R.S. 62	Private	Agri	1.150
				R.S. 198	Private	Agri	0.300
				R.S. 199	Private	Agri	0.160
				R.S. 460	Private	Non-Agri	0.280
				R.S. 461	Private	Agri	0.350
				R.S. 465	Private	Agri	0.340
			(25) Bhagelia (J. L. No. 155)	L.R. 1	Private	Non-Agri	0.060
				L.R. 2	Private	Agri	0.040
				L.R. 4	Private	Agri	0.100
				L.R. 5	Private	Agri	0.460
				L.R. 6	Private	Agri	0.090
				L.R. 5	Private	Agri	0.300
				L.R. 9	Private	Agri	0.840
				L.R. 64	Private	Non-Agri	0.080



1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 75	Private	Non-Agri	0.240
				L.R. 76	Private	Agri	0.320
				L.R. 77	Private	Agri	0.200
				L.R. 78	Private	Agri	0.900
				L.R. 82	Private	Agri	0.070
				L.R. 83	Private	Agri	0.030
				L.R. 85	Private	Non-Agri	0.120
				L.R. 86	Private	Agri	0.480
				L.R. 87	Private	Agri	0.120
			(26) Raniganj (J. L. No. 51)	L.R. 1326	Private	Agri	0.420
				L.R. 1328	Private	Agri	0.400
				L.R. 1331	Private	Agri	0.050
				L.R. 1327	Private	Agri	0.380
				L.R. 1330	Private	Agri	0.970
				L.R. 1177	Private	Agri	0.540
				L.R. 1178	Private	Non-Agri	0.370
				L.R. 1282	Private	Agri	0.035
				L.R. 1292	Private	Non-Agri	0.110
				L.R. 1293	Private	Non-Agri	0.930
				L.R. 1294	Private	Agri	0.320
				L.R. 1297	Private	Agri	0.620
				L.R. 1298	Private	Agri	0.800
				L.R. 1299	Private	Agri	0.120
				L.R. 1301	Private	Non-Agri	0.025
				L.R. 1302	Private	Agri	1.700
				L.R. 1303	Private	Agri	0.005
				L.R. 1304	Private	Agri	0.275
				L.R. 1305	Private	Non-Agri	0.040
				L.R. 1306	Private	Non-Agri	0.160
				L.R. 1307	Private	Agri	0.090
				L.R. 1308	Private	Agri	0.010
				L.R. 1315	Private	Agri	0.790
				L.R. 1316	Private	Agri	0.300
				L.R. 1324	Private	Agri	0.660
				L.R. 1325	Private	Agri	0.015
				L.R. 1156	Private	Agri	0.130
				L.R. 1157	Private	Agri	0.140
				L.R. 1158	Private	Agri	0.110
				L.R. 1159	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 1160	Private	Agri	0.380
				L.R. 1161	Private	Agri	0.490
				L.R. 1163	Private	Non-Agri	0.720
				L.R. 1164	Private	Non-Agri	0.050
				L.R. 1165	Private	Agri	0.460
				L.R. 1166	Private	Non-Agri	0.035
				L.R. 1170	Private	Agri	0.240
				L.R. 1171	Private	Agri	0.730
				L.R. 1172	Private	Agri	0.100
				L.R. 1173	Private	Agri	0.010
				L.R. 1175	Private	Agri	0.450

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 1176	Private	Agri	0.030
				L.R. 1179	Private	Agri	1.050
				L.R. 1180	Private	Agri	1.500
				L.R. 1335	Private	Non-Agri	0.010
				L.R. 385	Private	Agri	0.330
				L.R. 393	Private	Agri	0.025
				L.R. 394	Private	Agri	0.130
				L.R. 395	Private	Agri	0.003
				L.R. 396	Private	Non-Agri	0.070
				L.R. 408	Private	Non-Agri	0.080
				L.R. 409	Private	Agri	0.110
				L.R. 410	Private	Agri	0.110
				L.R. 930	Private	Agri	0.170
				L.R. 931	Private	Agri	0.020
				L.R. 934	Private	Agri	0.060
				L.R. 935	Private	Agri	0.050
				L.R. 950	Private	Agri	0.110
				L.R. 974	Private	Non-Agri	0.010
				L.R. 975	Private	Non-Agri	0.005
				L.R. 1110	Private	Non-Agri	0.060
				L.R. 1111	Private	Agri	0.030
				L.R. 1115	Private	Agri	0.240
				L.R. 1116	Private	Agri	0.070
				L.R. 1117	Private	Agri	0.280
				L.R. 1121	Private	Agri	0.320
				L.R. 1143	Private	Non-Agri	0.590
				L.R. 1144	Private	Non-Agri	0.090
				L.R. 1145	Private	Agri	0.070
				L.R. 1146	Private	Agri	0.060
				L.R. 1147	Private	Agri	0.100
				L.R. 1148	Private	Agri	0.050
				L.R. 1149	Private	Agri	0.140
				L.R. 1153	Private	Agri	0.015
				L.R. 1154	Private	Non-Agri	0.050
				L.R. 1155	Private	Agri	0.110
				L.R. 1334	Private	Agri	0.030
				L.R. 16	Private	Non-Agri	0.070
				L.R. 17	Private	Non-Agri	0.060
				L.R. 18	Private	Agri	0.220
				L.R. 20	Private	Agri	0.320
				L.R. 21	Private	Agri	0.060
				L.R. 22	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 23	Private	Agri	0.330
				L.R. 178	Private	Agri	0.520
				L.R. 181	Private	Non-Agri	0.860
				L.R. 189	Private	Agri	0.015
				L.R. 190	Private	Agri	0.090
				L.R. 191	Private	Agri	0.030
				L.R. 192	Private	Agri	0.165
				L.R. 269	Private	Non-Agri	0.060
				L.R. 273	Private	Agri	0.430

11	12	13	14	15	16	17	18
				L.R. 290	Private	Agri	0.0095
				L.R. 291	Private	Non-Agri	0.0015
				L.R. 292	Private	Agri	0.250
				L.R. 293	Private	Agri	0.120
				L.R. 294	Private	Non-Agri	0.260
				L.R. 346	Private	Agri	0.380
				L.R. 348	Private	Non-Agri	0.030
				L.R. 349	Private	Non-Agri	0.050
				L.R. 386	Private	Agri	0.150
				L.R. 387	Private	Agri	0.050
				L.R. 392	Private	Agri	0.130
				L.R. 411	Private	Agri	0.060
				L.R. 415	Private	Agri	0.240
				L.R. 416	Private	Agri	0.170
				L.R. 417	Private	Agri	0.140
				L.R. 422	Private	Agri	0.160
				L.R. 424	Private	Non-Agri	0.020
				L.R. 425	Private	Agri	0.060
				L.R. 426	Private	Agri	0.060
				L.R. 427	Private	Agri	0.060
			(27) Bagela (J.L. No. 29)	R.S. 782	Private	Agri	0.740
				R.S. 783	Private	Agri	0.160
				R.S. 907	Private	Agri	0.160
				R.S. 908	Private	Agri	0.290
				R.S. 911	Private	Non-Agri	0.085
				R.S. 912	Private	Non-Agri	0.030
				R.S. 913	Private	Non-Agri	0.035
				R.S. 914	Private	Agri	0.070
				R.S. 915	Private	Agri	0.060
				R.S. 918	Private	Non-Agri	0.020
				R.S. 925	Private	Agri	0.310
				R.S. 926	Private	Non-Agri	0.100
				R.S. 1054	Private	Non-Agri	0.070
				R.S. 1055	Private	Agri	0.360
				R.S. 1081	Private	Non-Agri	0.025
				R.S. 1085	Private	Agri	0.090
				R.S. 1086	Private	Agri	0.045
				R.S. 1087	Private	Non-Agri	0.035
				R.S. 1088	Private	Non-Agri	0.035
				R.S. 1123	Private	Agri	0.380
				R.S. 1124	Private	Agri	0.080
				R.S. 1136	Private	Non-Agri	0.540
				R.S. 1137	Private	Agri	0.390
				R.S. 1138	Private	Agri	0.040
				R.S. 1144	Private	Agri	0.360
				R.S. 1145	Private	Agri	0.280
				R.S. 1146	Private	Agri	0.090
				R.S. 1163	Private	Agri	0.180
				R.S. 1164	Private	Non-Agri	0.100
				R.S. 1165	Private	Non-Agri	0.050

1	2	3	4	5	6	7	8
				R.S. 1166	Private	Agri	0.240
				R.S. 1167	Private	Agri	0.410
				R.S. 683	Private	Agri	0.035
				R.S. 684	Private	Agri	0.025
				R.S. 685	Private	Non-Agri	0.015
				R.S. 686	Private	Agri	0.170
				R.S. 687	Private	Agri	0.050
				R.S. 734	Private	Agri	0.170
				R.S. 735	Private	Agri	0.040
				R.S. 736	Private	Agri	0.060
				R.S. 737	Private	Agri	0.060
				R.S. 738	Private	Agri	0.090
				R.S. 743	Private	Agri	0.100
				R.S. 744	Private	Agri	0.130
				R.S. 780	Private	Agri	0.120
				R.S. 781	Private	Agri	0.150
				R.S. 1092	Private	Agri	0.550
				R.S. 1093	Private	Non-Agri	0.100
				R.S. 1094	Private	Agri	0.060
				R.S. 1100	Private	Agri	1.250
				R.S. 1106	Private	Agri	1.100
				R.S. 1108	Private	Agri	0.540
				R.S. 1111	Private	Agri	0.130
				R.S. 1112	Private	Agri	0.090
				R.S. 1114	Private	Agri	0.120
				R.S. 1115	Private	Agri	0.140
				R.S. 1116	Private	Agri	0.680
				R.S. 1117	Private	Agri	0.370
			(28) Sitalpur (J. L. No. 27)	L.R. 70	Private	Agri	0.420
				L.R. 71	Private	Agri	0.220
				L.R. 73	Private	Agri	0.100
				L.R. 75	Private	Agri	0.200
				L.R. 77	Private	Agri	0.110
				L.R. 86	GoWB	Non-Agri	0.020
				L.R. 91	Private	Agri	0.020
				L.R. 92	Private	Agri	0.070
				L.R. 94	Private	Agri	0.010
				L.R. 204	Private	Agri	0.140
				L.R. 206	Private	Agri	0.100
				L.R. 207	Private	Agri	0.085
				L.R. 208	Private	Agri	0.160
				L.R. 209	Private	Agri	0.230
				L.R. 212	Private	Agri	0.450
				L.R. 213	Private	Agri	0.370
				L.R. 216	Private	Agri	0.010
				L.R. 217	Private	Agri	0.025
				L.R. 218	Private	Agri	0.025
				L.R. 220	Private	Agri	0.040
				L.R. 224	Private	Agri	0.500
				L.R. 225	Private	Agri	0.560

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 228	Private	Non-Agri	0.310
				L.R. 229	Private	Agri	0.005
				L.R. 230	Private	Agri	0.380
			(29) Mahammadpur (J. L. No. 26)	L.R. 379	Private	Agri	0.050
				L.R. 520	Private	Agri	0.330
				L.R. 521	Private	Agri	0.140
				L.R. 522	Private	Agri	0.640
			(30) Paschim Matiari (J. L. No. 18)	L.R. 4	Private	Agri	0.035
				L.R. 5	Private	Agri	0.050
				L.R. 27	Private	Agri	0.170
				L.R. 28	Private	Agri	0.160
				L.R. 30	Private	Agri	0.025
				L.R. 31	Private	Agri	0.080
				L.R. 101	Private	Agri	0.040
				L.R. 102	Private	Agri	0.205
				L.R. 106	Private	Agri	0.170
				L.R. 107	Private	Agri	0.420
				L.R. 108	Private	Agri	0.080
				L.R. 109	Private	Agri	0.260
				L.R. 110	Private	Agri	0.020
				L.R. 120	Private	Agri	0.100
				L.R. 121	Private	Agri	0.030
				L.R. 122	Private	Agri	0.020
				L.R. 123	Private	Agri	0.020
				L.R. 124	Private	Agri	0.015
				L.R. 125	Private	Agri	0.020
				L.R. 126	Private	Agri	0.030
				L.R. 127	Private	Agri	0.200
				L.R. 205	Private	Agri	0.240
				L.R. 209	Private	Agri	0.005
				L.R. 210	Private	Agri	0.050
				L.R. 216	Private	Non-Agri	0.030
			(31) Sarsar (J. L. No. 17)	L.R. 26	Private	Agri	0.100
				L.R. 27	Private	Agri	0.150
				L.R. 42	Private	Agri	0.560
				L.R. 43	Private	Agri	0.180
				L.R. 48	Private	Non-Agri	0.360
				L.R. 49	Private	Non-Agri	0.340
				L.R. 50	Private	Non-Agri	0.420
				L.R. 51	Private	Non-Agri	0.030
				L.R. 52	Private	Non-Agri	0.350
				L.R. 53	Private	Non-Agri	0.400
				L.R. 54	Private	Non-Agri	0.150
				L.R. 55	Private	Non-Agri	0.130
				L.R. 56	Private	Agri	0.390
				L.R. 57	Private	Agri	0.300
				L.R. 58	Private	Agri	0.080
				L.R. 59	Private	Agri	0.270
				L.R. 60	Private	Non-Agri	0.320

1	2	3	4	5	6	7	8
				L.R. 61	Private	Agri	0.250
				L.R. 63	Private	Agri	0.170
				L.R. 67	Private	Non-Agri	0.140
				L.R. 68	Private	Non-Agri	0.140
				L.R. 69	Private	Non-Agri	0.140
				L.R. 70	Private	Non-Agri	0.135
				L.R. 71	Private	Non-Agri	0.090
				L.R. 72	Private	Non-Agri	0.220
				L.R. 248	Private	Agri	0.150
				L.R. 249	Private	Agri	0.065
				L.R. 173	Private	Agri	0.090
			(32) Maheshbathna (J. L. No. 159)	R.S. 131	Private	Agri	0.020
				R.S. 132	Private	Agri	0.040
				R.S. 133	Private	Agri	0.100
				R.S. 134	Private	Agri	0.275
				R.S. 135	Private	Agri	0.700
				R.S. 137	Govt.	Non-Agri	0.060
			(33) Bhatbar (J. L. No. 160)	L.R. 190	Private	Agri	1.580
				L.R. 191	Private	Agri	0.075
				L.R. 193	Private	Non-Agri	0.130
				L.R. 195	Private	Agri	0.020
				L.R. 198	Private	Non-Agri	0.590
				L.R. 199	Private	Non-Agri	1.210
				L.R. 200	Private	Agri	0.080
				L.R. 222	Private	Agri	0.390
				L.R. 232	Govt.	Non-Agri	0.095
				L.R. 279	Private	Agri	0.060
				L.R. 280	Private	Agri	0.970
				L.R. 281	Private	Agri	0.320
				L.R. 203	Private	Agri	0.610
				L.R. 204	Private	Agri	0.730
				L.R. 205	Private	Agri	1.070
				L.R. 206	Private	Agri	0.370
				L.R. 207	Private	Agri	0.975
				L.R. 209	Private	Agri	1.880
			(34) Kismat Altapur (J. L. No. 204)	L.R. 96	Private	Agri	0.025
				L.R. 97	Private	Agri	0.050
				L.R. 99	GoWB	Agri	0.015
				L.R. 100	GoWB	Agri	0.010
				L.R. 105	Private	Agri	0.030
				L.R. 106	GoWB	Agri	0.045
				L.R. 107	GoWB	Agri	0.025
			(35) Paschim Maheshpur (J. L. No. 28)	L.R. 80	Private	Agri	0.180
				L.R. 82	Private	Agri	0.100
				L.R. 85	Private	Agri	0.820
				L.R. 88	Private	Non-Agri	0.065

1	2	3	4	5	6	7	8
			(36) Jhabradangi (J. L. No. 213)	R.S. 34	GoWB	Agri	0.245
				R.S. 35	GoWB	Agri	0.025
				R.S. 36	Private	Agri	0.260
				R.S. 38	Private	Agri	0.320
				R.S. 864	Private	Agri	0.060

[F. No. NH-1/Tech./LA/NH-34/Raiganj-Dalkhola/3A/2006/LA-1E/Tech.]

PRABHAKAR, Dy. Secy.